



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29—अप्रैल 4, 2008 (चैत्र 9, 1930)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29—APRIL 4, 2008 (CHAITRA 9, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 30 जनवरी 2008

का. जी. सं. 2/29/91-स्थापना (वेतन-II) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

दिनेश कुमार

अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. ए-35018/2/2006/प्रशा.-II--माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग निदेशक कार्यालय, (व्यावसायिक शिक्षा), व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य, 3, महापालिका मार्ग में कार्यरत डा. माधव कृष्णराव कुलकर्णी, उप सचिव को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में सहायक निदेशक (गोपनीय) (समान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'क' राजपत्रित) के पद पर अल्पावधि संविदा आधार पर आयोग कार्यालय में दिनांक 30.01.2008 (पूर्वाह) से 29.01.2011 (अपराह) तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. अल्पावधि संविदा आधार पर सहायक निदेशक (गोपनीय) के रूप में नियुक्त होने पर डॉ. माधव कृष्णराव कुलकर्णी का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.94 के समय-समय पर यथासंशोधित

सं. ए-38014/14/2007-प्रशा.-II--संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रबंधक (ईडीपी) के पद पर कार्यरत श्री बी. के. कोहरा अधिवर्षिता की धारु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2008 (इकतीस जनवरी, 2008) की अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

दिनेश कुमार

अवर सचिव (प्रशा.)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मार्च 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/0055/11/2/2006--राष्ट्रपति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित अपर पुलिस अधीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से अगले आदेश तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है:--

क्रम सं.	अपर पुलिस अधीक्षक का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सर्वश्री		
1.	एस. विजय कुमार, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	09.01.2008 (पूर्वाह्न)
2.	डी. एस. सुक्ता, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	08.01.2008 (पूर्वाह्न)
3.	रमनीश, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	08.01.2008 (पूर्वाह्न)
4.	पी. सी. शर्मा, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	08.01.2008 (अपराह्न)
5.	अरुण कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	09.01.2008 (पूर्वाह्न)
6.	एस. चैकटरामन, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	08.01.2008 (पूर्वाह्न)
7.	एस. अतर. मजूमदार, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	08.01.2008 (अपराह्न)
8.	बी. के. सी. रेड्डी, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	12.02.2008 (पूर्वाह्न)
9.	रवि दत्त कालिया, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो	14.01.2008 (पूर्वाह्न)

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 14 मार्च 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/0056/ए-29036/37/78--राष्ट्रपति ने श्री एच. सी. सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 29.02.2008 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 3/1/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री तयाल बसु, भा. पु. से. (प. बंगाल : 2000) को दिनांक 01 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न) से प्रारंभ में 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 3/2/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री कोशी कोशी, भा. पु. से. (हरि. : 1973) को दिनांक 25 फरवरी 2008 से वेतनमान रु. 24,050-650-26,000/- में सेवानिवृत्ति की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 20 फरवरी, 2008 के का. शा. सं. I-21019/16/2007-भा. पु. से-III के अनुसार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली में महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. ओ.रो.3550/2003-कार्मिक-1--भारत सरकार ने श्री ई. राधाकृष्णय्य, भा. पु. से. (जी. जे. : 86) पुलिस उप महानिरीक्षक, के. रि. पु. बल को पुलिस महानिरीक्षक पद पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 10.08.2010 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के. रि. पु. बल. का कार्यभार दिनांक 11.02.2008 (पूर्वाह्न) को सम्भाल लिया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 5 मार्च 2008

सं. ओ.रो.3767/08-सी.आर.सी.(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. (श्रीमती) दीप्ति महाजन. (हरला-7499) को अस्थायी रूप से आगामि आदेश जारी होने तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में अस्थायी रूप से दिनांक 09.01.2008 (पूर्वाह्न) से आगामि आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें सी. एच., ग्रुप केन्द्र, के. रि. पु. बल, बनतलाब जम्मू में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ए.छ:-1/2008-कार्मिक-1(स.कमा.)--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित व्यक्तियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमाण्डेन्ट के पद पर बल की समग्र नफरी में, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सौहार्द नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	ज्वाइनिंग की तारीख
1	2	3	4
		श्री/श्रीमती/कु.	
1.	16801	अनिश बरला	14.01.2008 (अपराह्न)
2.	26107	आलोक कुमार	14.01.2008 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4	1	2	3	4
3.	25222	विनोद कुमार त्रिवेदी	14.01.2008 (पूर्वाह्न)	36.	07231	धर्मेन्द्र सिंह	16.01.2008 (पूर्वाह्न)
4.	22478	पवन कुमार धुल	15.01.2008 (अपराह्न)	37.	89218	पाटिल स्वप्निल वसन्त राव	15.01.2008 (अपराह्न)
5.	40089	सचिन कुमार	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	38.	08612	नीरोज कुमार मिश्रा	14.01.2008 (अपराह्न)
6.	91373	सन्तोष कुमार	15.01.2008 (अपराह्न)	39.	06538	राना नवीन	14.01.2008 (अपराह्न)
7.	18160	सुनील कुमार सिंह	14.01.2008 (अपराह्न)	40.	53638	संजय कुमार भूनिया	18.01.2008 (अपराह्न)
8.	30985	ललित किशोर	15.01.2008 (अपराह्न)	41.	49566	आशीश रंजन	15.01.2008 (पूर्वाह्न)
9.	50606	निरन्जन कुमार निराला	30.01.2008 (अपराह्न)	42.	67577	रुचिर कुमार	14.01.2008 (अपराह्न)
10.	99386	आशीश कुमार	15.01.2008 (अपराह्न)	43.	53834	त्रिभुवन प्रताप सिंह	14.01.2008 (पूर्वाह्न)
11.	68995	रमेश कुमार सिंह	14.01.2008 (अपराह्न)	44.	01004	विजेन्द्र सिंह	15.01.2008 (पूर्वाह्न)
12.	18581	अरविन्द कुमार चाथरे	16.01.2008 (अपराह्न)	45.	70856	निरन्जन साहु	13.01.2008 (अपराह्न)
13.	52311	गौरव धुराया	15.01.2008 (अपराह्न)	46.	85266	सचिदानन्द तिवारी	14.01.2008 (अपराह्न)
14.	02949	अंकुर श्रीवास्तव	15.01.2008 (अपराह्न)	47.	84977	अनुज कुमार सिंह	13.01.2008 (अपराह्न)
15.	34437	पार्या सारथी साहू	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	48.	56105	योगेश पाण्डे	12.01.2008 (अपराह्न)
16.	78407	राजेश महाजन	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	49.	14525	साकेत कुमार	14.01.2008 (अपराह्न)
17.	54501	राजेश लाम्बा	15.01.2008 (अपराह्न)	50.	73790	मोती लाल	15.01.2008 (पूर्वाह्न)
18.	84955	एस. क्यू. अखतर जमाल	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	51.	21427	कोटगौरे श्रीकान्त बिठल	13.01.2008 (अपराह्न)
19.	26621	भूपिन्दर पाल शर्मा	15.01.2008 (अपराह्न)	52.	84600	सत्य प्रकाश चतुर्वेदी	14.01.2008 (अपराह्न)
20.	54517	यशेन्द्र सिंह	15.01.2008 (अपराह्न)	53.	28000	कु. रिकी कुमारी	15.01.2008 (पूर्वाह्न)
21.	61583	राजीव जाखड	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	54.	49692	अनिल कुमार	15.01.2008 (अपराह्न)
22.	13092	रमेश कुमार	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	55.	90733	दिनेश कुमार शर्मा	20.01.2008 (पूर्वाह्न)
23.	20374	राज शेखर रावत	14.01.2008 (पूर्वाह्न)	56.	77360	अंजनी कुमार	15.01.2008 (अपराह्न)
24.	49383	तेज प्रताप सिंह	15.01.2008 (अपराह्न)	57.	65023	नवीन विश्वकर्मा	14.01.2008 (पूर्वाह्न)
25.	88840	ब्रजेश कुमार दुबे	14.01.2008 (अपराह्न)	58.	03099	प्रभाकर नायक	14.01.2008 (पूर्वाह्न)
26.	09673	कु. संध्या रानी	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	59.	01449	भरत सिंह राजपूत	14.01.2008 (अपराह्न)
27.	66641	सुमित कुमार	14.01.2008 (अपराह्न)	60.	00977	सिद्ध गौरवा गोधरा	15.01.2008 (पूर्वाह्न)
28.	02003	शिवराज सिंह	14.01.2008 (अपराह्न)	61.	07205	त्रिभुवन मोहन करौटी	15.01.2008 (अपराह्न)
29.	83991	दिनेश कुमार सिंह	14.01.2008 (पूर्वाह्न)	62.	67362	बेन्कटेश	14.01.2008 (अपराह्न)
30.	53894	प्रीतीन्दर राजपूत	14.01.2008 (पूर्वाह्न)	63.	34171	पवन कुमार	19.01.2008 (पूर्वाह्न)
31.	81334	सूरज कुमार झा	15.01.2008 (अपराह्न)	64.	77019	प्रवीन कुमार	15.01.2008 (पूर्वाह्न)
32.	54915	धर्मेन्द्र आर्या	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	65.	74540	जितेन्द्र कुमार	14.01.2008 (पूर्वाह्न)
33.	51298	विवेक सरोज	15.01.2008 (पूर्वाह्न)	66.	20222	विनीत विश्वकर्मा	15.01.2008 (अपराह्न)
34.	87093	मधुसूदन रेड्डी एम.	12.01.2008 (पूर्वाह्न)	67.	28771	रोहित कुमार	14.01.2008 (अपराह्न)
35.	53654	राजीव चौधरी	14.01.2008 (अपराह्न)	68.	19914	जय प्रकार कुमार	14.01.2008 (अपराह्न)

1	2	3	4
69.	80223	करतार सिंह कपूर	14.01.2008 (अपराह)
70.	08963	सैयद अनीस अलि नखवी	14.01.2008 (अपराह)
71.	81818	संजय कुमार सिंह	14.01.2008 (अपराह)
72.	88338	विशाल खिज	14.01.2008 (अपराह)
73.	09882	नितिन कुमार	15.01.2008 (पूर्वाह)
74.	27991	धीरज पारोक	15.01.2008 (अपराह)
75.	18736	रेमता राम चौधरी	16.01.2008 (अपराह)
76.	62262	धर्मेन्द्र कुमार स्वामी	15.01.2008 (पूर्वाह)
77.	10661	लैशराम रोबिन्द्रो सिंह	15.01.2008 (अपराह)
78.	46733	विजय कुमार	14.01.2008 (अपराह)
79.	77120	भरमचौर कुमार	14.01.2008 (अपराह)
80.	62416	के. निर्मल	14.01.2008 (अपराह)
81.	23358	सोहन सिंह	14.01.2008 (पूर्वाह)
82.	47342	कु. तुलसी डुगरियाल	13.01.2008 (अपराह)
83.	45586	राणा प्रताप भारती	15.01.2008 (पूर्वाह)
84.	46672	मुकेश कुमार भीणा	14.01.2008 (पूर्वाह)
85.	02771	मातोशी जुविचु	14.01.2008 (अपराह)
86.	31274	कु. आम्रपाली पन्थी	15.01.2008 (पूर्वाह)
87.	52572	एल. सैमुएल जमीर	14.01.2008 (अपराह)
88.	49305	नीरज भीणा	15.01.2008 (अपराह)
89.	14556	गुलशन टिकी	14.01.2008 (अपराह)
90.	115930	कु. शोभा रावत	15.01.2008 (अपराह)
91.	56174	समीर वर्मा	15.01.2008 (अपराह)
92.	26270	देवेश कुमार तिवारी	15.01.2008 (पूर्वाह)
93.	25744	हरीश चन्द्र सिंह नेगी	15.01.2008 (अपराह)
94.	96853	रवि प्रकाश सिंह	15.01.2008 (अपराह)
95.	13622	बिपिन कुमार	15.01.2008 (पूर्वाह)
96.	81304	प्रवीन कुमार	15.01.2008 (अपराह)
97.	19971	जितेन्द्र गोस्वामी	15.01.2008 (पूर्वाह)
98.	75755	राकेश चौधरी	15.01.2008 (अपराह)
99.	100990	ललित किशोर	15.01.2008 (अपराह)
100.	75742	हेमराज भीणा	15.01.2008 (पूर्वाह)

2. इन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी कादरपुर (गुड़गांव) में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट कर दी है तथा इनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 11 मार्च 2008

सं. ओ-दो-881/72-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--डॉ. पी. एन. भाट, पुलिस महानिरीक्षक (चिकित्सा)/चिकित्सा अधीक्षक, कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद (इरला-1089) कम्पोजिट अस्पताल के.रि.पु.बल, हैदराबाद के दिनांक 31.01.2008 (अपराह) को सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.01.2008 (अपराह) से निकाला गया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3715/06-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. विनोद राणा, चिकित्सा अधिकारी, 187 बटालियन (इरला-6981), के.रि.पु. बल द्वारा दिनांक 31.01.2008 (अपराह) को कार्यभार सौंप दिया गया। तदनुसार इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 31.01.2008 (अपराह) से हटाया गया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3612/03-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. अजय कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, 150 बटालियन (इरला-5763), के.रि.पु. बल द्वारा दिनांक 31.01.2008 (अपराह) को कार्यभार सौंप दिया गया। तदनुसार इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 31.01.2008 (अपराह) से हटाया गया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 मार्च 2008

सं. पी.तीन-2/2008-कार्मिक-3--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप, कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, अखड़ी के श्री एम. राववन नायर (इरला संख्या-6015) ने प्रशासनिक अधिकारी का पदभार दिनांक 31.01.2008 (अपराह) को त्याग दिया।

के. के. शिवा प्रसाद
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 मार्च 2008

सं. ई-28017/1/नोट/2008/कार्मिक-2/612--केन्द्रीय सिविल सेवा
(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन सरकारी सेवा से

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, श्री संग्राम सिंह ने दिनांक 29.02.2008
(पूर्वाह्न) से सहायक कमाण्डेन्ट, के.ओ.सु.ब. इकाई, एस.पी.एम. होशंगाबाद
पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ह/- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

दिनांक 17 फरवरी 2008

सं. ई-28017/1/नोट/2008/कार्मिक-2/646--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति और अधिवासिता की आयु पूरी होने पर निम्नलिखित अधिकारियों ने सरकारी सेवा से उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि और इकाई से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

क्रम. सं.	नाम	पदनाम	तिथि	इकाई
1.	सी. बी. आइप (सुपर अनुवेषन)	ए. आई.जी.	31.01.2008	प. क्षेत्र मुख्यालय, मुंबई
2.	बलदेव सिंह (स्वैच्छिक)	सहायक कमाण्डेन्ट	01.03.2008	के.ओ.सु.ब. इकाई ए. एस.जी. लखनऊ
3.	शेख नजीमुद्दीन (स्वैच्छिक)	सहायक कमाण्डेन्ट	06.03.2008	टार.टी.सी. अराकोणम

ह/- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

वित्त मंत्रालय

बैंक नोट मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

सं. बीएनपी/सी/44/98-1--श्री डी. के. कंकरे, उप तकनीकी अधिकारी (मुद्रण) को तकनीकी अधिकारी (मुद्रण एवं मुद्रणपट्ट) के पद पर वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- (समूह-ख राजपत्रित) में दिनांक 01.03.2008 एक वर्ष के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

डी. व्ही. गोंडनाले
महाप्रबन्धक

क्रम सं.	अधिकारी(यों) का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदोन्नत तिथि
-------------	---------------------	---------------------	--------------

सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री

1.	वाई. मोहन	217/29.02.2008	03.03.2008 (पू.अ.)
----	-----------	----------------	-----------------------

उपर्युक्त पदोन्नतियों उनके वरिष्ठों के द्वारा, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, भारत का उच्च न्यायालय (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण) में लंबित याचिकाओं के परिणामों के बशर्तें आदेशित हैं। भारत सरकार के दिनांक 26.09.1981 के का.आ.सं. एफ 7/1/80-स्था(पी-1) तथा दिनांक 08.02.1983 एफ 13/26/82-स्था(पी-1) के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

प्रधान महालेखाकार (सि.ले.प.) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 6 मार्च 2008

सं. प्रशा.-1/प्रमो./5-4/2007-2008/131--प्रधान महालेखाकार (सि.ले.प.) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल) 'लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल)' के सेवर्ग को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं।

दिनांक 10 मार्च 2008

सं. प्रशा.-1/प्रमो./8-132/2007-2008/132--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) ने सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) को उनके नाम के आगे

सी. सैलजा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

दर्शाई गई तिथि के अनुसार सेवानिवृत्त किए जाने की घोषणा की है।

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम तथा पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	टी. नारायणा राव	29.02.2008

सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री

सी. सैलजा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 11 मार्च 2008

सं. एजी(ए एण्ड ई)/प्रशा.-1/1/8-88/2007-08/2008.--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष-अनुमति के साथ सहायक लेखा अधिकारी का पदोन्नत किया जाता है ताकि नीचे दर्शाये गये नामित कर्मचारियों प्रस्तुत दिनांक से रुपये 7,500/-12,000/- वेतनमान में स्थानांतरण रूप में लेखा अधिकारी के पद में काम करेंगे।

क्रम सं.	नाम	लेखा अधिकारी के पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	ए. आर. स्वामी	04.02.2008
2.	बी. एम. एन रमा कुमारी	03.03.2008
3.	पी. एस. नागेश्वर राव	03.03.2008

यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिट अर्जी लंबित है। इसके अलावा भी वह पदोन्नति बिना किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दबाव या बिना पूर्वग्रह आदेश को जारी किया जाता है।

ई. श्रीनिवासन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहगढ़-248001, दिनांक 10 मार्च 2008

सं. सी-67/707.--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' डिवीज़न-I (सर्वेक्षकों/सर्वेक्षण सहायकों) की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक ग्रुप 'बी' के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति की जाती है:-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री राजेश्वर कुमार (अनु. जाति)	31.12.2007
2.	श्री समीर संतरा	06.11.2007

1	2	3
3.	श्री ए. भट्टाचार्य	25.10.2007
4.	श्री टी. डी. सेमवाल (अनु. जन जाति)	26.12.2007

आर. एस. तंवर
ट्रिगेडियर
भारत के महामर्षक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 13 मार्च 2008

सं. पीडी/8(9)/2007/भर्ती-4/26819.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड-सी के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में, 1 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं. अधिकारी का नाम

1. कुमारी किंचित राज
2. श्री हेमन्त कुमार स्वाई
3. कुमारी स्मिता दीक्षित
4. कुमारी नूतन गौतम
5. कुमारी स्वाति घोष

एन. डी. शर्मा
नियंत्रक

मुंबई-85, दिनांक 13 मार्च 2008

सं. पीडी/4(4)/2001/आर-III/2008/2160.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती राधा बालासुब्रमण्यम्, लेखा अधिकारी, भापअ केन्द्र, मुंबई को दिनांक 01.01.2007 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/4(4)/2001/आर-III/2008/2166.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री सी पी मोरजाल, लेखा अधिकारी, भापअ केन्द्र, मुंबई को दिनांक 01.11.2006 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुंबई-400094, दिनांक 3 मार्च 2007

सं. प्रऊनिप/प्रशा.-II/43/111.--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद श्री माधव श्रीधर साठे, जनसंपर्क सहायक को दिनांक 10.03.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

जी. एम. थॉमस
प्रशासन अधिकारी-III

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 4 मार्च 2008

सं. बीईसीसी/व्यक्ति-वाइएसपी/801-391/473.--निदेशक, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता श्री वाई. एस. प्रसाद, सहायक लेखा अधिकारी को परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र में रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखा अधिकारी के पद पर काम करने के लिए 22 अक्टूबर 2007 के पूर्वाह्न से अगला आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. जी. बोस
प्रशासनिक अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 7 मार्च 2008

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/07/34.--मुख्य कार्यकारी, ब्रिट, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायकों को दिनांक 1 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एसबी', के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम
1.	श्री गणपती शण्भुगम् मोंकांडी
2.	श्री काशिनाथ गजमल चैरालकर
3.	श्री नमदेरियल चाको जोसफ

ओ. के. सत्यन्
प्रशासन अधिकारी-III

नवी मुंबई-400705, दिनांक 11 मार्च 2008

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/07/37.--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के निम्नलिखित

वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई', के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम
1.	श्रीमती पारिया हाज़र
2.	श्री विश्वास विनायक मुहेकर

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/07/38.--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' की वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता श्रीमती सुजता साहा दास को दिनांक 1 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी', के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 5 मार्च 2008

सं. ए.एम.डी.-16/1/2001-भर्ती/वॉ. III/1668.--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक, एतद्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के श्री आर. बालकृष्णन, सहायक (वेतनमान रु. 5,500-175-9,000) को दिनांक 17.10.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, शिलांग में सहायक लेखा अधिकारी (रु. 7,450-225-11,500/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एम. नायर
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 मार्च 2008

सं. ए-32013/1/2007.-स्थापना-2(खण्ड).--राष्ट्रपति, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय के श्री मनीष कुमार, उप निदेशक (विमान सुरक्षा), को उप निदेशक (विमान सुरक्षा) (ईजीनियरिंग) के पद पर (तदर्थ आधार पर) 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में पुनः दिनांक 18 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न) से 06 माह के लिए या जब तक यह पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

मीना रमा
उपनिदेशक, प्रशासन

जल संसाधन मंत्रालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

एन. एच. 4, फरीदाबाद, दिनांक 4 मार्च 2008

सं. 3-1609/2008-वैज्ञा.स्था.--विभागीय प्रगति समिति (समूह 'ख' राजपत्रित) की सिफारिशों पर श्री ए. के. सक्सेना, मानचित्रकार को 6,500-200-10,500/- रुपये प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर खरिद मानचित्रकार (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 11.02.2008 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत कर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मध्य क्षेत्र, नागपुर में तैनात किया जाता है।

वे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस. के. सिन्हा
निदेशक (प्रशासन)

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 26 फरवरी 2008

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2008.--श्री सी. के. शर्मा, हिन्दी अनुवादक (कनिष्ठ), पत्र सूचना कार्यालय, प्रतिष्ठा भवन, सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एनेक्स-101, एम. के. रोड, मुंबई-400020 को भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 05.01.1994 में विहित तथा समय-समय पर संशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ, मुंबई में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 15 फरवरी, 2008 पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, हिन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

विमल गांधी
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कानपुर, दिनांक 13 मार्च 2008

सं. एन.सी./560(5)/2212.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	
1	2	3
1.	15028	मैसर्स स्ट्रॉव चेलकर (इंडिया) लिमिटेड
2.	15118	मैसर्स डेयरो मिल्क फूड्स लिमिटेड
3.	15286	मैसर्स एस. बी. पेट्रोलियम लिमिटेड
4.	15318	मैसर्स किसान फौस (इंडिया) लिमिटेड

1	2	3
5.	15351	मैसर्स मैरिल ल्यान्व एण्ड फौस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6.	15364	मैसर्स अपर इंडिया एम्प्लायर्स एसोसिएशन
7.	15410	मैसर्स लक्ष्मी ऑक्सीजन लिमिटेड
8.	15452	मैसर्स स्टारलिंग ऑक्सीजन इंडिया लिमिटेड
9.	15460	मैसर्स एस. बी. (एलपीजी) बॉयलिंग लिमिटेड
10.	15512	मैसर्स यू. पी. फासफेट लिमिटेड
11.	15582	मैसर्स सौहार्द (इंडिया) कॉमर्सियल कं. लिमिटेड
12.	15623	मैसर्स राज्या प्रोडक्ट्स लिमिटेड
13.	15664	मैसर्स वैलकम मैडीकेयर लिमिटेड
14.	15724	मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम (इंडिया) लिमिटेड
15.	15808	मैसर्स श्रीरामाकृष्ण फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
16.	15927	मैसर्स गोडविन इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड
17.	15955	मैसर्स मिड-ईस्ट फूड्स लिमिटेड
18.	16018	मैसर्स डिजाइनर सॉफ्टवेयर लिमिटेड
19.	16092	मैसर्स शैल पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड
20.	16261	मैसर्स सनराइस कापर वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
21.	16298	मैसर्स स्टैंडर्ड्स शुगर मिल्स इंडिया लिमिटेड
22.	16626	मैसर्स अनमोल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	16803	मैसर्स मैक पेट्रो प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
24.	16829	मैसर्स अमित पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड
25.	16920	मैसर्स स्पेक्ट्रम केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड
26.	17135	मैसर्स पीजो गुटका लिमिटेड
27.	17225	मैसर्स मिडिलिक मार्केटिंग लिमिटेड

के. एल. कम्बोज

कम्पनी रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना, दिनांक 11 मार्च 2008

सं. आर.ओ.सी./पेट/560.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से आज काट दिया जाता है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. कम्पनी		कम्पनी का नाम
सं.	सं.	
1	2	3
1.	557	मैसर्स बिहार सीमेंट पाइप कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	5815	मैसर्स मेरीना इन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	5829	मैसर्स शिव गंगा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
4.	5844	मैसर्स पुरुषोत्तम एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	5902	मैसर्स हल्दीराम भुक्तेश कुमार कम्पैक्शनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

कै. प्रसाद
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आदी इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00241/057183/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आदी इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुप्रिया एलम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00261/058242/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुप्रिया एलम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कॉन्स्टेलेशन इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00258/058036/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कॉन्स्टेलेशन इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेवीकेम पोलीमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00248/057581/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेवीकेम पोलीमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मलिक ऑरगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00245/057485/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मलिक ऑरगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कातिल केमी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00214/057113/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कातिल केमी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन ऑरगेनिक (हेलोजन) केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 560(3)एम से ए/आ ओ सो/2007/56952--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सन ऑरगेनिक (हेलोजन) केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके

सं. 00169/056431/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भगवानि डाईकेम

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोबिन लैक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

संजई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00119/055856/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रेबिन लैम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनोद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंजई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00113/055740/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चिनोद आर्गेनिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दैवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिल्पा डाई-इन्टरमिडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00110/056734/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिल्पा खर्ई-इन्टरमिडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जिदिता कमरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मेन्बर्ह-4(MOH)2, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00107/055523/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विदिता कंपटेक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से कांट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मार्टन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00104/055360/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मार्टन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केमिस्टाइन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

संख्या-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00101/055354/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन पस के अवसान पर मैसर्स कैमिलाइन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कान ग्ले कोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00098/055246/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कान क्ले कोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दैवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाथ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00072/054263/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नाथ फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीरंग एग्रो-कैम प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

संख्या-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00068/054189/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीरंग एग्रो-कैम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दैवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रॉयानी ऐसिड्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पंजी-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00063/054112/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रायानी ऐसिड्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निशिता टेक्सकोम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

सुंखई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00059/053294/560(3)--जम्मूनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निशाता टेक्सकोम

प्रॉक्वेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दियानिलिनस ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00055/052476/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दियानिविल्स ओरगेनिकल् प्रॉपर्टी लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधत्त कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्मीर बायो-टेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंडई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00052/051994/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पैसर्स आर्म्स बाँयो-टैक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दैवत केमिकल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00048/051947/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पैसर्स दैवत केमिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रंजीत केमिकल्स एण्ड ऑयल
इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंवाई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00044/051829/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रंजीत केमिकल्स एण्ड ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हेप्ता केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

संख्या-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00041/051620/360(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हेप्ता कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोल्तार ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00036/051224/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पोल्टाइर ओरगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधायित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एमोस पेट्रोकेमिकल्स एण्ड अल्कालीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंडई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00200/087895/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एमोस पेट्रोकेमिकल्स

एण्ड अल्कालीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओल्फेक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंजई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00154/087812/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओल्फेक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गये तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुसुम डायकेम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

संवाई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00148/087688/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एल्टेद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन भास के अवसान पर मैसर्स कुसुम डायकेम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साई एम्पाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मं.बई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00140/087467/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) की अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साई एमाइन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू फार्मा इंडियाना लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00126/086607/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्यू फार्मा इंडियाना क्लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नानावटी ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

संख्या-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00119/086278/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नानावटी ओरगेनिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अजय कौमिर्बोन्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00110/086223/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अजय केमिजॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोगल ओरगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मेसर्स-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00102/085897/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रीगल ओरगेनिक्स

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा। और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्वेस्ट ओरगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00096/085787/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 का धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्वेस्ट ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाणी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इनोवेटिव सिलिकोन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंडई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00087/085783/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन भास के अवसान पर मैसर्स इन्वैस्टिव सिलिकोन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओमेगा क्लैरोकेम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00080/085631/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओमेगा क्लोरोकेम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोग्रेसिव प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00034/083083/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रोप्रेसिव प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पारेख डाईस एण्ड
इन्टरपिडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00028/082785/360(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स परेख ड्राईस एण्ड इन्वर्निमिडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एकाशिश केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पंथई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00031/082831/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एकाशिश केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चक्राधर ड्राईस इन्टरमिडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00025/082725/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चक्रधर डार्ज
इन्टरमिडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर
दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बालाजी कृषि रसायन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00019/081971/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मस के अवसान पर मैसर्स बालाजी कृषि रसायन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जस्मिन केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00016/081925/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारोख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जस्मिन कॅमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन्जलहार्ड हाईलैंड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01002/101655/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एन्जलहार्ड हाईलैंड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया

तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विषदित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरीझोना केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंसई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00260/089797/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आरिझोना केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यूकेय इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुंवाई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00478/091939/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्यूकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेसिल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00713/095278/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेसिस्ट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हस्टॉन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01046/103248/360(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 360 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसन्न पर मैसर्स हस्टॉन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनीष डायकेम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

सुंवाई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01042/103245/360(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पैसर्स मनीष छयकेंम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जावेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हेमजयन्त फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंथई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01037/103160/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसलान पर पैसर्स हेमज्वन्त फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्जित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1936 और मैसर्स एलविनो डाय केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मंडई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01033/102937/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एलविनो डाय केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कर्मवीर काकासाहेब केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01025/102585/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कर्मवीर काकासाहेब केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्याणी नेचूरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01020/102249/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कल्याणी नेचूरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एमसी क्लितीलैंड एनविरो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01013/101951/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एमसी क्लितीलैंड एनविरो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिनोदीन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 01006/101721/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिनोदीन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनिष इनफिन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 00274/102615/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मनिष इनफिन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाय सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 9/560/121321--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डाय सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी की राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

बिजया नागोनाच खंडारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. अवर.ओ.सी.पी./11-107834/560(3)/एचडीजेड--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसर्जन में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स नीरा
फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए

गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विभटित कर दी जाएगी।

घो. पी. काटकर
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सीलाश्री रॉयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं आर.ओ.सी.पो./11-107383/560(3)/एच.डी.बैड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स लीलाश्री रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महीधर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं आर.ओ.सी.पी./11-107302/560(3)/एचडीजैड-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसर्जन में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स महीधर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनापे डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-४११००४, दिनांक १९ दिसम्बर २००७

सं आर.ओ.सी.पी./11-107303/560(3)/एचडीजैड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसर्जन में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अनाये डेबलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम 'कम्पनियों के रजिस्टर' से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

डॉ. पी. काटकर
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जीवन रक्षा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पी./11-73231/560(3)/एचडीवैड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 360 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जीवन रक्षा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गजाला फार्म प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-४११००४, दिनांक १९ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सो.पी./11-72761/560(3)/एचडीबैड-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स राजाला फार्म प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अर्पिता एक्वा 'प्युरीफायर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

एण्डे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पो./11-109649/560(3)/एचडीजेड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अर्पिता एक्वा प्युरीफायर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्लोकॉप सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्णे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं आ.ओ.सो.पी./11-109683/560(3)/एच.डी.जैदू-कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सं. आर.ओ.सी.पी./11-106531/560(3)/एचडीजैड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अंमोल मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों

सं. आर.ओ.सी.पी./11-112057/560(3)/एचडीनैड-कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्री स्थायी समर्थ मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेडारील एगो-प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

एण्डे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. अवर.ओ.सी.पी./11-73056/560(3)/एचबीजेड-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जेम्सरील एग्रो-प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जायेगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जैसेल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-81917/560(3)/एचडीआई-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जैसेल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैमार कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पण-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं आर.ओ.सी.पी./11-109713/560(3)/एचडीकैड-कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स पैमार कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सबा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं आर.ओ.सी.पी./11-80882/560(3)/एचडीजेड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सबा एण्टोटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किसान मिनी शुगर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.जो.सी.पी./11-79938/560(3)/एचडीजैड-कम्पनी अभिलेख, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स किसान मिनी झुगर प्लांट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्लासिक टच ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-81986/560(3)/एचडी बैंक--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स क्लासिक टॉच अधिवेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के

रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

धी. पी. काटकर
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सॉफ्ट एम सिनफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-80786/560(3)/एनबीके-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सॉफ्ट एम सिनमोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरूण टेक्नीकॉस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

से. आर.ओ.सो.पी./11-81057/560(3)/एनबीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अरुण टेक्नीकॉस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी अमित कंस्ट्रक्शन्स (पुणे)
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

प्रणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं आर.ओ.सी.पी./11-112959/560(3)/एचडीजैड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन पाह के उपरान्त मैसर्स बी अमित कंस्ट्रक्शन्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के

रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

खी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेक्नो-प्रोक्सीमा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

प्रणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पी./11-81306/560(3)/एनबीके-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स टेक्नो-प्रोक्सीमा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वौ. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोनियाजी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-99935/560(3)/एनबीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सोनियाजी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शालिनी प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पण-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-089538/560(3)/एमएमएम--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स शालिनी प्रेसआईडेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए

गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधिवत कर दी जाएगी।

बी. पी. काठकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काजाले एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृणे-411004, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./69530/560(3)/एनबीके—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स काजले एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधायित्व कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पैसर्स स्नैप इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-112775/560(3)/एचओजेड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्टीप इम्फो प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

घौ. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सैसर्स अनुमोद एग्री फार्मस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-12690/560(3)/एचडीबीड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अनुमोद एग्रो फार्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साइंटिफिक मशीन प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

से आर.ओ.सो.पो./11-73862/560(3)/एचबीएड-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा वह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सार्विटिक मशीन प्लांट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उर्मि हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. अर.ओ.सी.पी./11-112874/560(3)/एचडीआई-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रॉमि हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कडवंगांव इलेक्ट्रो-ऑल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-41/004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. अर.ओ.सी.पी./25-12696/560(3)/एचडीजैड-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स कडवागांव इलेक्ट्रो-ऑल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी पी काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. आर.ओ.सो.पी./11-101775/560(3)/एनबीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स वेस्टर्न

फ्लोरीटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दो जाएगी।

वौ. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रत्नश्या प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सी.पी./11-101838/560(3)/एनबीके-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रत्नद्रुथा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियन के रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
यहाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कादम्बरी इंजीनियरिंग (पुणे)
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-102030/560(3)/एचबीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स कादम्बरी इंजीनियरिंग (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेलफोन फीलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं आर.ओ.सी.पी./11-102244/560(3)/एनबीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स डी.एल.फोन फोलागैट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

8-516 GU/2007

दर्शा नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्ट्र से इस कार्यालय द्वारा हटा दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी. पी. काठकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मीडियावे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं आर.ओ.सो.पो./11-102292/560(3)/एनबीके-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मीडियावे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधिलिखित कर दी जाएगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीरंग ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. अफ़.ओ.सो.पी./11-103844/560(3)/एनबीके-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्रीरंग शिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यवाही द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निर्मिती इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं आर.ओ.सी.पी./11-103767/560(3)/एनबीके-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स निर्मिती इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्जित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विध्वस्त कर दी जाएगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिव सागर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विषय में।

पृणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पो./11-03655/560(3)/एच.प्रैक्टिस--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स शिव सागर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रामलिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-02578/560(3)/एचडीजैड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रामलिंग इजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुभा विजनेस कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पूणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सी.पी./11-02423/560(3)/एचडीजैड-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारोख के तीन माह के उपशान्त मैसर्स सुमा कंसलटंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी डी प्रिंसिपल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सी.पी./11-01842/560(3)/एचबीजेड-कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स पी डी प्रिंसिपल कास्टीयस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधिलिख कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महालक्ष्मी प्लास्टर मेन्यूफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-01817/560(3)/एचबीजेड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स महालक्ष्मी प्लास्टर पेन्ट्यूफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बायो लाईफ फार्मास्यूटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-04592/560(3)/एचडीजैड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स बाथो लाईफ फार्मास्यूटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाइमेनशन्स सॉफ्टवेयर
सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं आर.ओ.सी.पी./11-04544/560(3)/एचडीईड-कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसेज

आईमैनसन्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्जित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विचरित कर दी जायेगी।

सी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेटल एक्जीम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं आर.जी.सी.पी./11-01629/560(3)/एचबीजेड--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस वारोख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मेडल एक्जीम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साई वसंत डेन्टल सर्विसेस
कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-04265/560(3)/एच.सी.जेड-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स साईं वसंत डेन्टल सर्विसेस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रगति फॉरेस्ट (इंडिया) लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-04151/560(3)/एच.जे.जेड-कम्पनी अभिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा वह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स प्रगति
फ़ास्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्जित

नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्यनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हडपसर वेजीटेबल्स एण्ड फ्रूट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-४।।००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं आर.ओ.सी.पी./11-19536/560(3) आर.वी.जे.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस वारीस के तीन माह के उपरान्त मैसर्स हड्डप्सर वेजोटेबल्स एण्ड फ्रूट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा कोट दिया जावेगा और उक्त कम्पनी विवक्षित कर दी जायेगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डायना इलेक्ट्रिकस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.सं./11-19627/560(3)/आर.वी.जी.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स इयनन इलेक्ट्रिक्स मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्जित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जायेगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विक्टर मोपोइस लिमिटेड के विषय में।

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. वार.ओ.सी.पी./11-18541/560(3)/उत्तर बी.जी.-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त पैसर्स बिजनेस मोपीइस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्जित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

शुद्धिपत्र

सं. कं.र./प.ब./आईपीसी/560(एसएम)/07 दिनांक 17 मार्च 2008

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अभ्युक्ति
52. 21-37419	आवाज प्रकाशन प्रा. लि.	सुओ-मोटो प्रक्रिया के अन्तर्गत कम्पनी के नाम को हटाने की कार्यवाही को अस्वीकृत कर दिया गया है एवं भारत सरकार के गजट भाग-III, खण्ड-I में प्रकाशित क्रम सं.-41 एवं सूची डब्ल्यू/बी दिनांक 13.10.07 से 19.10.2007 में प्रदर्शित सूची से नाम को एतद्वारा हटा दिया जाता है। अब यह कम्पनी कार्यशील कम्पनी मानी जाती है।

नीबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
प. बंगाल

शुद्धिपत्र

सं. कं.र./प.ब./आईपीसी/560(एसएम)/0/1731 दिनांक 17 मार्च 2008

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अभ्युक्ति
471. 21-86302	जगत जननी एग्री प्लान्टेशन प्रा. लि.	सुओ-मोटो प्रक्रिया के अन्तर्गत कम्पनी के नाम को हटाने की कार्यवाही को अस्वीकृत कर दिया गया है एवं भारत सरकार के गजट भाग-III, खण्ड-I में प्रकाशित क्रम सं.-471 एवं सूची डब्ल्यू/बी दिनांक 15.09.2007 में प्रदर्शित सूची से नाम को एतद्वारा हटा दिया जाता है। अब यह कम्पनी कार्यशील कम्पनी मानी जाती है।

नीबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
प. बंगाल

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्ट्र से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	
सं.	सं.	
1	2	3
1.	015687	मैसर्स भरनी एक्वा फार्मस लिमिटेड
2.	020858	मैसर्स पेंगयुइन फ्लोर लिमिटेड
3.	020869	मैसर्स श्री सीभाग्या स्टेशनरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
4.	020870	मैसर्स जीनियस पैकेजिंग लिमिटेड
5.	017741	मैसर्स निको ऑयल रिसोर्स (इंडिया) लिमिटेड
6.	020885	मैसर्स कोटा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
7.	020667	मैसर्स त्रिकलिक प्रभाकर कोस्मेटिक्स लिमिटेड
8.	017371	मैसर्स जी वी के प्रोटीन्स लिमिटेड
9.	011082	मैसर्स बिसाखा प्रोटीन्स लिमिटेड
10.	011093	मैसर्स सर्स क्युरेटेयूय प्राईवेट लिमिटेड
11.	011094	मैसर्स एलिंगेन्स ग्रेनाईट्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	011110	मैसर्स हिन्द स्टेलिंग इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	011121	मैसर्स हैदराबाद लीगल कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
14.	011128	मैसर्स चेतना साल्ट्स एण्ड न्यू केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	011140	मैसर्स भाग्यानगर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	011148	मैसर्स हालमार्क मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
17.	011149	मैसर्स भुविकास रिवल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	011190	मैसर्स दिव्याशक्ति मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	011197	मैसर्स अमृता पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड
20.	015452	मैसर्स कोरटला बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड
21.	017484	मैसर्स युनिकेक एक्वा-फार्मस लिमिटेड
22.	011003	मैसर्स खाडेल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	011008	मैसर्स स्वीफ्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	011012	मैसर्स वक-फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
25.	011036	मैसर्स क्लासिक मिनरल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	011108	मैसर्स गोपिसेट्टी बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	011048	मैसर्स रैनबो सेरामिक्स लिमिटेड
28.	011046	मैसर्स श्री होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	015687	मैसर्स पंचमुखी गन्नापती एंजक्रिट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:-

हैदराबाद-500195, दिनांक 10 फरवरी 2008

सं. आरएपी/560(3)/सुओ मोटो/केबीआर/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

1	2	3
30.	011060	मैसर्स सुगुना सिंथेटिक्स एशक्रिट लिमिटेड
31.	011072	मैसर्स प्रशांता इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	011079	मैसर्स आन्धा टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
33.	011022	मैसर्स हिमालया एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
34.	011151	मैसर्स झान्सी एगो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	011152	मैसर्स सूर्या वीडियो मूवीस प्राईवेट लिमिटेड
36.	011157	मैसर्स इन्द्रा एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	011167	मैसर्स मिटी ऑटोमोटीव्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	011187	मैसर्स फर्स्ट इंडेंटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
39.	011188	मैसर्स जीनित साई कृष्ण बोल्ट्स एण्ड नट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	011191	मैसर्स चेतन्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
41.	011133	मैसर्स विजया रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	011120	मैसर्स ओरियन्ट रैकिंग प्राईवेट लिमिटेड
43.	011098	मैसर्स आशुतोष लॉण्ड्री एण्ड क्लीनर्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	011087	मैसर्स साई प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	011074	मैसर्स नीदर्स पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	011204	मैसर्स गल्फोन्ड आइस प्राईवेट लिमिटेड
47.	011032	मैसर्स कल्यानि साइन एक्सिबिटर्स प्राईवेट लिमिटेड

डी एमकृष्ण
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

हैदराबाद-500193, दिनांक 10 फरवरी 2008

सं. आरएच/560(3)/सुओ मोटो/दिसत्या-जेटि/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो, रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	010001	मैसर्स मार्गदर्शी पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
2.	010002	मैसर्स यशोधरा पोल्ट्री फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
3.	010005	मैसर्स परागोन पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
4.	010007	मैसर्स अपर्णा एण्ड अरुणा फार्म प्राईवेट लिमिटेड
5.	010009	मैसर्स माइक्रो एंड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	010016	मैसर्स संजीवनी फॅरेरो एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
7.	010019	मैसर्स गौतमी पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
8.	010022	मैसर्स कनिष्का ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	010032	मैसर्स अजको इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	010033	मैसर्स भावापुरी पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
11.	010040	मैसर्स फैबकॉम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	010046	मैसर्स श्रीवेन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
13.	010048	मैसर्स किरण ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	010049	मैसर्स युनिटेक सिलिकेट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	010056	मैसर्स एमबियर शोयर कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	010060	मैसर्स कल्याणी पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
17.	010068	मैसर्स काशको क्लीमेटिक प्राईवेट लिमिटेड
18.	010071	मैसर्स एग्रोस्टार केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	010082	मैसर्स समाप्ता पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
20.	010085	मैसर्स इन्टर ओसियन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
21.	010096	मैसर्स मल्टीगेन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
22.	010098	मैसर्स श्री रामा अंजनेया पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
23.	010099	मैसर्स श्यामला पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
24.	010111	मैसर्स स्टेट्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	010118	मैसर्स आलापाटी पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
26.	010135	मैसर्स कुष्णा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	010139	मैसर्स फाइन आर्क इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	010145	मैसर्स स्कालमैट ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	010153	मैसर्स मदेहज फ्रूट प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	010182	मैसर्स हरिनि मेनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	010184	मैसर्स श्री पावनी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	010185	मैसर्स अविनाश फाइबरस प्राईवेट लिमिटेड
33.	010187	मैसर्स सनराइस हैदराबाद प्राईवेट लिमिटेड
34.	010190	मैसर्स एस्के एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
35.	010192	मैसर्स विद्युत रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	010193	मैसर्स नवचैतन्य पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
37.	010202	मैसर्स आर्योटी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
38.	010210	मैसर्स उमा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	010213	मैसर्स साई क्रांति ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	010217	मैसर्स अंतरिक्ष मार्केटिंग एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
41.	010229	मैसर्स कोस्टल टाइल्स एण्ड मोलडस प्राईवेट लिमिटेड
42.	010231	मैसर्स हरतिज बिबरेजस प्राईवेट लिमिटेड
43.	010232	मैसर्स कोहिनूर मार्केटिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	010240	मैसर्स रामा कृष्णा एस्टेट्स एण्ड फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
45.	010245	मैसर्स राजधानी प्लास्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
46.	010248	मैसर्स श्री सत्यानारायण पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
47.	010249	मैसर्स श्री अंजनेया पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
48.	010255	मैसर्स इम्मर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	010257	मैसर्स प्रामोदया पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
50.	010261	मैसर्स रासनंदिनी टेली प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	010264	मैसर्स कटार ग्रेनाईट्स लिमिटेड
52.	010266	मैसर्स मोनिंग स्टार कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	010267	मैसर्स सुजाता इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
54.	010269	मैसर्स गौतम टिनकॉन एण्ड मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	010273	मैसर्स मसटिंग मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
56.	010278	मैसर्स सकाला इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
57.	010279	मैसर्स ट्रेडी कम्प्यूटर स्पॉट प्राईवेट लिमिटेड
58.	010285	मैसर्स न्यू मोड्स इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	010288	मैसर्स सोल एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड
60.	010296	मैसर्स उषा पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
61.	010298	मैसर्स एक्सप्रेस कारपोरेट एण्ड एलाइड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
62.	010303	मैसर्स वेंकटेश्वरा बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	010309	मैसर्स हार्टफोर्ड मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड
64.	010312	मैसर्स रंगा पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
65.	010318	मैसर्स सोबीकोन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	010320	मैसर्स राजकमल आइन्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	010321	मैसर्स अरूण एण्ड मॅल्च पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
68.	010324	मैसर्स वरूण एग्री बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
69.	010325	मैसर्स कोस्टल पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
70.	010326	मैसर्स द्वारका पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
71.	010337	मैसर्स सिद्धार्थ ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	010356	मैसर्स विजनीर इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
73.	010359	मैसर्स वेल वर्थ माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	010360	मैसर्स श्री चौधरी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
75.	010363	मैसर्स विजयवाडा कम्प्यूटर सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
76.	010368	मैसर्स पैन पोर्ट्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	010369	मैसर्स हिमाविंदू फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	010371	मैसर्स आंध्रा प्रदेश सलफेट्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	010372	मैसर्स स्वर्णामुखी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	010374	मैसर्स सन्नी बोटल्लर्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	010375	मैसर्स मोहनखेडा एग्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	010381	मैसर्स अरुसॉफ्ट बियर कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	010401	मैसर्स गोल्डन एग्री ओसियनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड
84.	010402	मैसर्स नाफरीस होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	010405	मैसर्स शिवा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	010428	मैसर्स श्री रामवेन्द्रा हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	010436	मैसर्स मंचिराजू फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	010441	मैसर्स राधा कृष्णा फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
89.	010443	मैसर्स श्री लक्ष्मी सेरिक फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
90.	010445	मैसर्स महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	010452	मैसर्स शांभूषि कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	010454	मैसर्स किशोर फैब्रिकेट्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	010455	मैसर्स श्री दिव्या दत्ता फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	010456	मैसर्स श्री दिव्या दत्ता कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	010468	मैसर्स ओमिनी क्राफ्ट पीपुल प्राईवेट लिमिटेड
96.	010479	मैसर्स मेघा टेलीट्रेक प्राईवेट लिमिटेड
97.	010482	मैसर्स कटयायानी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	010494	मैसर्स सदर्न रेडिएटर्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	010501	मैसर्स वासवी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
100.	010504	मैसर्स मोहिमन कम्युनिकेशन एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	010506	मैसर्स प्रियंका ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	010510	मैसर्स तेजेश फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
103.	010516	मैसर्स निखिल्ला फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
104.	010526	मैसर्स विनटेक पोल मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	010528	मैसर्स के पोल मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	010535	मैसर्स मुत्ता वायर्स एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	010536	मैसर्स भारणी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	010537	मैसर्स प्रियंका ऑटो एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
109.	010543	मैसर्स पंचजन्या केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	010545	मैसर्स महेन्द्रा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	010546	मैसर्स कुमार फिस्सरीस प्राईवेट लिमिटेड
112.	010552	मैसर्स डेक्कन पोलोमर्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	010555	मैसर्स क्लासिक सीड्स एण्ड मराइन्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	010556	मैसर्स रिलायएबल सीड्स एण्ड मराइन्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	010559	मैसर्स कृष्णा चैतन्या ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	010569	मैसर्स ईस्ट कोस्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
117.	010571	मैसर्स वीके पैकेजिंग वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	010578	मैसर्स किट्टी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	010579	मैसर्स बब्बुलू पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
120.	010592	मैसर्स प्रभु इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	010595	मैसर्स साउथटेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
122.	010597	मैसर्स वैजाग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
123.	010600	मैसर्स कविता केमिकल्स एण्ड इन्फ्रस प्राईवेट लिमिटेड
124.	010603	मैसर्स ग्रीनव्यू एम्प्लूमेंट पार्क्स लिमिटेड
125.	010604	मैसर्स पियोनीर ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	010611	मैसर्स हरमोन ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	010620	मैसर्स सुधा एग्रो फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	010622	मैसर्स रावेन इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	010623	मैसर्स एच पोलोमर्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	010626	मैसर्स अभिषुद्धि एग्रो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
131.	010627	मैसर्स वेदुल्लापल्ली सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
132.	010629	मैसर्स स्वास्तिक टैयनियम लिमिटेड
133.	010634	मैसर्स हिना एग्रो प्रोटीन प्राईवेट लिमिटेड
134.	010635	मैसर्स माडर्न एग फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
135.	010638	मैसर्स नेमिशाल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
136.	010642	मैसर्स होटल आनन्द निवास प्राईवेट लिमिटेड
137.	010645	मैसर्स धरणी स्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	010653	मैसर्स मनीष प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	010658	मैसर्स के. एम. एक्सपोर्ट वेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
140.	010660	मैसर्स आलवैन एग्रो एक्सपेंसेस लिमिटेड
141.	010676	मैसर्स लोखेन ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	010677	मैसर्स काममो-डे प्राईवेट लिमिटेड
143.	010680	मैसर्स सेनो प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	010688	मैसर्स राधा कृष्णा वाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	010690	मैसर्स कृष्णार्जुना फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
146.	010692	मैसर्स एस्सेन्सी बिल्डर्स एण्ड मार्केट प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	010695	मैसर्स धर्मा प्लास्टिक फोरमिंग प्राईवेट लिमिटेड
148.	010696	मैसर्स भद्रका फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
149.	010697	मैसर्स शोभा डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	010705	मैसर्स अपर्णा डेरी शीप गोद एण्ड पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
151.	010717	मैसर्स श्री गजालक्ष्मी फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
152.	010718	मैसर्स हरी-हर फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
153.	010729	मैसर्स स्पार्क ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड
154.	010732	मैसर्स श्री जगन्नाथ ब्रिक्वेरीस लिमिटेड
155.	010736	मैसर्स सीभाग्या एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
156.	010741	मैसर्स कोस्ट कम्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	010742	मैसर्स नागार्जुना टेक्स्टास प्राईवेट लिमिटेड
158.	010748	मैसर्स हेमाद्री फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
159.	010751	मैसर्स श्री सिद्धार्थ एल्युमिनियम वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	010760	मैसर्स आशीर्वाद फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
161.	010770	मैसर्स टाशगर मेराइन फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	010776	मैसर्स मैट्रिक्स मल्टीसर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
163.	010782	मैसर्स रूट्स इंडिया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
164.	010792	मैसर्स मयूरा मार्बल एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	197.	010945	मैसर्स इंटरसोफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	010802	मैसर्स सुरक्षा ग्रेड एण्ड रबर प्राईवेट लिमिटेड	198.	010948	मैसर्स वेस्समा डाय सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
166.	010826	मैसर्स एक्सेल मोल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	199.	010957	मैसर्स गोमती एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	010827	मैसर्स सोलवेंट कंसलटेसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	200.	010959	मैसर्स प्रोविन फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
168.	010828	मैसर्स अर्चना वायर्स प्राईवेट लिमिटेड	201.	010960	मैसर्स शिवा शक्ति सुपर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
169.	010829	मैसर्स शिल्पा ब्रिक्स एण्ड फ्लोरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	202.	010963	मैसर्स टासकीन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	010831	मैसर्स जोडिक ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	203.	010965	मैसर्स गिरधारी फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
171.	010836	मैसर्स ऐस्कर्या फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	204.	010969	मैसर्स साउथ इंडिया पाइप्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	010856	मैसर्स आनन्द पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	205.	010981	मैसर्स पी टी लोरोय स्टेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	010863	मैसर्स चतुर्भुजा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	206.	010983	मैसर्स आइडोरियल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
174.	010864	मैसर्स जनप्रिया सुपर बाजार लिमिटेड	207.	010986	मैसर्स महावर्द्धन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
175.	010872	मैसर्स रमेश मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	208.	010994	मैसर्स सरस्वती हल्सी ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	010873	मैसर्स बिन माबफूज फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	209.	011003	मैसर्स खाडेल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	010874	मैसर्स सदर्न डिस्ट्रीलरीस प्राईवेट लिमिटेड	210.	011008	मैसर्स स्वीफ्ट (इंडिया) फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	010875	मैसर्स न्यूटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	211.	011012	मैसर्स वीएसी-फार्म सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	010876	मैसर्स प्रो वेल् एक्जीम एण्ड कंसलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड	212.	011022	मैसर्स हिमालय एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
180.	010878	मैसर्स राकेश फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	213.	011036	मैसर्स क्लासिक भिनरल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
181.	01879	मैसर्स विजाग मेडिकल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	214.	011046	मैसर्स श्री श्री होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
182.	010880	मैसर्स सुपरमार्ग वायर्स प्राईवेट लिमिटेड	215.	011048	मैसर्स रेनबो सेरामिक्स लिमिटेड
183.	010886	मैसर्स मोडहिज एक्सपो इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	216.	011056	मैसर्स पंचमुखी गणपति आषाढ लिमिटेड
184.	010888	मैसर्स साई दीपा फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	217.	011060	मैसर्स सुगुना सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
185.	010892	मैसर्स गेगीनेनी ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	218.	011072	मैसर्स प्रशांता इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	010894	मैसर्स श्री विद्देश्वर ऑटोमोबाइल प्राईवेट लिमिटेड	219.	011079	मैसर्स आंध्रा टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
187.	010905	मैसर्स आपरे एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	220.	011082	मैसर्स बिसाखा प्रोटीन्स लिमिटेड
188.	010906	मैसर्स सुपरफाइन बोर्ड्स इंडिया लिमिटेड	221.	011093	मैसर्स सरस ब्यूटेटीक्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	010908	मैसर्स नागेन्द्रा पोल्ट्री फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	222.	011094	मैसर्स ऐलिंगेन्स ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	010911	मैसर्स श्री रंजना पोल्ट्री फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	223.	011108	मैसर्स गोपीसेट्टी बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
191.	010912	मैसर्स कालुबला फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	224.	011110	मैसर्स हिन्द स्टर्लिंग इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	010913	मैसर्स श्री साई वप्सी फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	225.	011121	मैसर्स हैदराबाद लौगल कंसलटेसी प्राईवेट लिमिटेड
193.	010918	मैसर्स किन्नरा मार्बलस प्राईवेट लिमिटेड	226.	011128	मैसर्स चेतना साटल्स एण्ड न्यू केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
194.	010920	मैसर्स चिंतलापटी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	227.	011140	मैसर्स भाग्यनगर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
195.	010934	मैसर्स संगमेश्वर कोल्ड प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड			
196.	010940	मैसर्स सारान्या इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
228.	011148	मैसर्स हालमार्क्स मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
229.	011149	मैसर्स भूविकास रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
230.	011151	मैसर्स झांसी एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
231.	011190	मैसर्स दिव्यालक्ष्मी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
232.	011197	मैसर्स अमृता पोल्ट्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड

डॉ. रामाकृष्ण
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनमार्क एपलायन्सिज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 6 मार्च 2008

सं. 7406--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एनमार्क एपलायन्सिज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित हो गई है।

एस. एम. अमिरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेरिनाट मरकेन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 6 मार्च 2008

सं. 13572--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेरिनाट मरकेन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित हो गई है।

एस. एम. अमिरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे एम एम मार्केटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 6 मार्च 2008

सं. 560(3)/एससीए/अर ओ सी/एनएलएम/560/2008/00007 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे एम एम मार्केटिंग सिस्टम

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित हो जाएगी।

एस. एम. अमिरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वडकानचेरी कल्चरल इन्टरप्राइसिज लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 6 मार्च 2008

सं. 4656--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वडकानचेरी कल्चरल इन्टरप्राइसिज लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित हो गई है।

एस. एम. अमिरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर-34, दिनांक 7 मार्च 2008

सं. टी.ए./एच/560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, आज रजिस्ट्रार से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विधित हो जाएंगी:--

क्र.	कम्पनी	कम्पनी का नाम
सं.	सं.	
1	2	3
1.	30868	मैसर्स सुपर्णा कम्प्यूटर्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2.	30873	मैसर्स यूनिक ट्रेड्सलोक प्राइवेट लिमिटेड
3.	30878	मैसर्स रिच एन रीमल फूट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
4.	30895	मैसर्स रिलाटेल् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5.	30902	मैसर्स काम्पेज आई. टी. सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
6.	30926	मैसर्स विजयनगर सिलिका प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	30939	मैसर्स ग्रेट प्लांस हेल्थकेयर सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8.	30946	मैसर्स ग्रीनपीवर रिन्यूबल एनर्जी एंड इनवायरमेंट मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
9.	30949	मैसर्स कल्पतरू मार्केटिंग नेटवर्क (बेंगलूर) प्राइवेट लिमिटेड
10.	30957	मैसर्स श्री हरी कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
11.	30963	मैसर्स ब्लेयर माइंड नेटवर्क कांसेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	30970	मैसर्स गजानन होम्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	30971	मैसर्स टेनजेंट साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
14.	30972	मैसर्स 3सी एडवांटेज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
15.	30979	मैसर्स मेलान्गे कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	30988	मैसर्स सरयु इंफोटेक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	30999	मैसर्स फिना लिंक्स क्रेडिट कांसेप्ट प्राईवेट लिमिटेड
18.	30807	मैसर्स मेन फ्राइडे टेक्नोलॉजी लेब्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	30808	मैसर्स एस.जे.पी. इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
20.	30809	मैसर्स जी.एल.जी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
21.	30812	मैसर्स वेस्टमोन्ट एनर्जी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
22.	30813	मैसर्स विनैट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
23.	30826	मैसर्स सिनान इंफो सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	30834	मैसर्स दिकान इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	30835	मैसर्स कोशना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
26.	30845	मैसर्स जयोल इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	30854	मैसर्स ग्रीन लिंक इम्पैक्स सोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
28.	30857	मैसर्स गगन नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
29.	30859	मैसर्स एवरग्रीन कॉन्सेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	30860	मैसर्स ई-मेनटेक साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

संजय कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर-34, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. आरओसीबी/टीए-एमएम/560(5)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र.	कम्पनी	कम्पनी का नाम
सं.	सं.	
1	2	3
1.	41451	मैसर्स ग्लोबल इंट्रोपोलिस इंडो प्राईवेट लिमिटेड
2.	7756	मैसर्स अशी क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	21788	मैसर्स स्पलाईन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	19079	मैसर्स पीएस क्वेयर पावर टेक्नोलॉजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	23744	मैसर्स वेब्स बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	16004	मैसर्स डिमेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	34535	मैसर्स अलिके सिडे प्राईवेट लिमिटेड
8.	36136	मैसर्स साफ्टरर्म डेवलपमेंट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
9.	32457	मैसर्स शिवभगतान कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	16468	मैसर्स निक्सोम फार्नेस प्राईवेट लिमिटेड
11.	7922	मैसर्स सी.एन.सी. इंजीनियरिंग लिमिटेड
12.	19230	मैसर्स इशु डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड
13.	19231	मैसर्स इशु रिसोर्स लिमिटेड
14.	19233	मैसर्स ऐम्बरय सिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	21699	मैसर्स थर्मोग्राफिक मेजरमेंट प्राईवेट लिमिटेड
16.	38083	मैसर्स एम.एस.एन. बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
17.	26114	मैसर्स सटिसर्व टेक्नोलॉजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	25229	मैसर्स इनसाइड्स इंटीरियर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	13694	मैसर्स जुनिपर प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
20.	27116	मैसर्स मल्लिकार्जुन एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	22026	मैसर्स मद्रिल-हिल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
22.	17973	मैसर्स एम-पोल इंडस्ट्रीज बैंगलोर प्राईवेट लिमिटेड
23.	17812	मैसर्स श्री साई लक्ष्मी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	22923	मैसर्स कॉम्पेक्ट टेक्नोलॉजिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
25.	27373	मैसर्स शमानुर पावर कांफ़ीशन लिमिटेड
26.	9831	मैसर्स कृष कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	7487	मैसर्स शमानुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
28.	9536	मैसर्स जॉनस फ़ेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	14891	मैसर्स सनशाइन फार्माकॉम लिमिटेड
30.	18677	मैसर्स चैन फ़ेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	20878	मैसर्स शिवास इंटरनेशनल लिमिटेड
32.	22502	मैसर्स ऑटो स्कैन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बैंगलूर-34, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. आरओसीबी/एमसीए-21/टीए-एमएम/560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विधित हो जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1. 34552	मैसर्स वेरायटीज बेबरेजेस प्राईवेट लिमिटेड
2. 26505	मैसर्स इंटरटेमेंट इंजीनियरिंग एण्ड इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
3. 7975	मैसर्स अशोका पालिस्टर ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
4. 18058	मैसर्स वीणा लेपिडरी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5. 10074	मैसर्स घुब एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6. 18654	मैसर्स वेट्रिक्स इंटरनेशनल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
7. 20001	मैसर्स किमलाईन फूड स्पेरियलिटिस प्राईवेट लिमिटेड
8. 29072	मैसर्स रेस्ट प्रोपर्टी मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
9. 6257	मैसर्स जे.एस. इंटरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड
10. 32626	मैसर्स टेलेंट डाय सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
11. 34891	मैसर्स स्केलेंट साफ्टवेयर सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

बी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बैंगलूर-34, दिनांक 11 मार्च 2008

सं. कं.स./क.र.ब./तस/560(3)/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विधित हो जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1. 20248	मैसर्स प्रिमियर बिजनेस क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
2. 20588	मैसर्स मेगासिटी सुपर चिप्स प्राईवेट लिमिटेड
3. 20346	मैसर्स रंगीला ग्रामेट्स डाईंग प्राईवेट लिमिटेड
4. 20825	मैसर्स भैयो हरीचन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
5. 20366	मैसर्स बार्डन इम्पेक्ट्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6. 20993	मैसर्स एस. एम. इंस्ट्रुमेंटेशन प्राईवेट लिमिटेड
7. 20669	मैसर्स बेसीलीक फार्निशियल कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
8. 20947	मैसर्स युलेस्ट सिम्योरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
9. 20938	मैसर्स जारा फैशनस प्राईवेट लिमिटेड

बी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 30th January 2008

No. A-35018/2/2006-Admn. II.—Hon'ble Chairman, Union Public Service Commission is pleased to appoint Dr. Madhav Kishanrao Kulkarni, Deputy Secretary in the office of Director (Vocational Education), Directorate of Vocational Education and Training, Maharashtra State, 3, Mahapalika Marg to the post of Assistant Director (Confidential) (General Central Service, Gr. "A", Gazetted) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on Short-term Contract basis in the Commission's Office for a period of 3 years w.e.f. 30.1.2008 (F/N) to 29.1.2011 (A/N) or until further orders whichever is earlier.

2. During his appointment as Assistant Director (Confidential) on Short-term Contract basis, the pay in r/o Dr. Madhav Kishanrao Kulkarni will be regulated in accordance with the provisions contained in D/o Per. & Trg. O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 5.1.94 as amended from time to time.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

The 31st January 2008

No. A-38014/14/2007.-Admn. II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri V. K. Vohra, a Manager (EDP) in the office of Union Public Service Commission stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.01.2008 (Thirty First January 2008).

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 10th March 2008

No. DP/PERS. I/2007/0055./11/2/2006.—The President is pleased to appoint the following Addl. Ss.P. CBI to the post of Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation with effect from the dates mentioned against each and until further orders.

Sl. No.	Name of the Addl. Ss.P.	Date of joining
1	2	3
	S/Shri	
1.	S. Vijay Kumar, SP, CBI	09.01.2008 (F/N)
2.	D. S. Shukla, SP, CBI	08.01.2008 (F/N)
3.	Ramnish, SP, CBI	08.01.2008 (F/N)
4.	P. C. Sharma, SP, CBI	08.01.2008 (A/N)

1	2	3
	S/Shri	
5.	Arun Kumar Sharma, SP, CBI	09.01.2008 (F/N)
6.	S. Venkataraman, SP, CBI	08.01.2008 (F/N)
7.	S. R. Majumdar, SP, CBI	08.01.2008 (AN)
8.	V. K. C. Reddy, SP, CBI	12.02.2008 (F/N)
9.	Ravi Dutt Kalia, SP, CBI	14.01.2008 (F/N)

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

The 14th March 2008

No. DP/Pers. I/2008/0056./A-19036/37/38.—The President is pleased to appoint Shri H. C. Singh, DIG, CBI to the post of Joint Director in the Central Bureau of Investigation with effect from 29.02.2008 (FN) and until further orders.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(BUREAU OF POLICE RESEARCH AND
DEVELOPMENT)

New Delhi, the 27th February 2008

No. 3/1/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Tamal Basu, IPS (WB : 2000) as Principal, Central Detective Training School, Kolkata on deputation basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- initially for a period of four years with effect from the Forenoon of 1st February, 2008.

A. K. SOOD
Asstt. Dir. (Admn.)

The 28th February 2008

No. 3/2/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Koshiy Koshiy, IPS (HY : 1973) as Director General, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi in the pay scale of Rs. 24,050-650-26,000/- with effect from 25th February, 2008 and until his superannuation or till further orders, whichever events takes place earlier in pursuance of Government of India, Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. I-21019/16/2007-IPS. III dated 20th February, 2008.

A. K. SOOD
Asstt. Dir. (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF
New Delhi-03, the 29th February 2008

No. O. II.3550/2003/Pers. I.—The Govt. of India have appointed Shri E. Radhakrishnaiah, IPS (GJ : 86) DIG, CRPF

as Inspector General of Police in CRPF on deputation for a period upto 10.8.2010 from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General of Police, CRPF in the forenoon of 11.02.2008.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers. I)

The 5th March 2008

No. O. IL 3767/08-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Deepti Mahajan (IRLA-7499) as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 09.01.2008 (FN) till further order. She is posted to CH, GC, CRPF, Bantalab, Jammu.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers. I)

No. A. VI. 1/2008-Pers. I. (AC)—The President is pleased to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity until further orders against the overall strength of Central Reserve Police Force :—

Sl. No.	Roll No.	Name of Officer	Date of Joining
1	2	3	4
		S/Shri	
1.	16801	Anish Barla	14.01.2008 (AN)
2.	26107	Alok Kumar	14.01.2008 (FN)
3.	25222	Vinod Kumar Trivedi	14.01.2008 (FN)
4.	22478	Pawan Kumar Dhull	15.01.2008 (AN)
5.	40089	Sachin Kumar	15.01.2008 (FN)
6.	91373	Santosh Kumar	15.01.2008 (AN)
7.	18160	Sunil Kumar Singh	14.01.2008 (AN)
8.	30985	Lalit Kishore	15.01.2008 (AN)
9.	50606	Niranjan Kumar Nirala	30.01.2008 (AN)
10.	99386	Ashish Kumar	15.01.2008 (AN)
11.	68995	Ramesh Kumar Singh	14.01.2008 (AN)
12.	18581	Arvind Kumar Wathrey	16.01.2008 (AN)
13.	52311	Gaurav Ghurayya	15.01.2008 (AN)
14.	02949	Ankur Srivastava	15.01.2008 (AN)

1	2	3	4
		S/Shri	
15.	34437	Partha Sarathi Sahoo	15.01.2008 (FN)
16.	78407	Rajesh Mahajan	15.01.2008 (FN)
17.	54501	Rajesh Lamba	15.01.2008 (AN)
18.	84955	S. Q. Akhtar Jamal	15.01.2008 (FN)
19.	26621	Bhupinder Pal Sharma	15.01.2008 (AN)
20.	54517	Yatender Singh	15.01.2008 (AN)
21.	61583	Rajiv Jakhar	15.01.2008 (FN)
22.	13092	Ramesh Kumar	15.01.2008 (FN)
23.	20374	Raj Shekhar Rout	14.01.2008 (FN)
24.	49383	Tej Pratap Singh	15.01.2008 (AN)
25.	88840	Brijesh Kumar Dubey	14.01.2008 (AN)
26.	09673	Ms. Sandhya Rani	15.01.2008 (FN)
27.	66641	Sumet Kumar	14.01.2008 (AN)
28.	02003	Shivraj Singh	14.01.2008 (AN)
29.	63991	Dinesh Kumar Singh	14.01.2008 (FN)
30.	53894	Preetinder Rajput	14.01.2008 (FN)
31.	81334	Suraj Kumar Jha	15.01.2008 (AN)
32.	54915	Dharmendu Arya	15.01.2008 (FN)
33.	51298	Vivek Saroj	14.01.2008 (FN)
34.	87093	Madhu Sudhana Reddy M	12.01.2008 (FN)
35.	53654	Rajeev Chaudhary	14.01.2008 (AN)
36.	07231	Dharmender Singh	16.01.2008 (FN)
37.	89218	Patil Swapnil Vasant Rao	15.01.2008 (AN)
38.	08612	Niroj Kumar Mishra	14.01.2008 (AN)
39.	06538	Rana Navin	14.01.2008 (AN)
40.	53638	Sanjay Kumar Poonia	18.01.2008 (AN)
41.	49566	Ashish Ranjan	15.01.2008 (FN)
42.	67577	Ruchir Kumar	14.01.2008 (AN)
43.	53834	Tribhuvan Pratap Singh	14.01.2008 (FN)
44.	01004	Vijendra Singh	15.01.2008 (FN)
45.	70856	Niranjan Sahu	13.01.2008 (AN)
46.	85266	Sachchida Nand Tiwari	14.01.2008 (AN)
47.	84977	Anuj Kumar Singh	13.01.2008 (AN)
48.	56105	Yogesh Pandey	12.01.2008 (AN)
49.	14525	Saket Kumar	14.01.2008 (AN)

1	2	3	4
		S/Shri	
50.	73790	Moti Lal	15.01.2008 (FN)
51.	21427	Kotgiri Shrikant Vithal	13.01.2008 (AN)
52.	84600	Satya Prakash Chaturvedi	14.01.2008 (AN)
53.	28000	Ms. Pinki Kumari	15.01.2008 (FN)
54.	49692	Anil Kumar	15.01.2008 (AN)
55.	90733	Dinesh Kumar Sharma	20.01.2008 (FN)
56.	77360	Anjani Kumar	15.01.2008 (AN)
57.	65023	Naveen Vishwakarma	14.01.2008 (FN)
58.	03099	Prabhakar Nayak	14.01.2008 (FN)
59.	01449	Bharat Singh Rajput	14.01.2008 (AN)
60.	00977	Siddh Gorava Godara	15.01.2008 (FN)
61.	07205	Tribhuvan Mohan Kargoti	15.01.2008 (AN)
62.	67362	Venkatesh	14.01.2008 (AN)
63.	34171	Pawan Kumar	19.01.2008 (FN)
64.	77019	Praveen Kumar	15.01.2008 (FN)
65.	74540	Jitendra Kumar	14.01.2008 (FN)
66.	20222	Vincent Vishwakarma	15.01.2008 (AN)
67.	28771	Rohit Kumar	14.01.2008 (AN)
68.	19914	Jai Prakash Kumar	14.01.2008 (AN)
69.	80223	Kartar Singh Kapoor	14.01.2008 (AN)
70.	08963	Sayyed Anees Ali Naqvi	14.01.2008 (AN)
71.	81818	Sanjay Kumar Singh	14.01.2008 (AN)
72.	88338	Vishal Vig	14.01.2008 (AN)
73.	09882	Nitin Kumar	15.01.2008 (FN)
74.	27991	Dhooaraj Pareek	15.01.2008 (AN)
75.	18736	Remta Ram Choudhary	16.01.2008 (AN)
76.	62262	Dharmendra Kumar Swami	15.01.2008 (FN)
77.	10661	Laishram Robindro Singh	15.01.2008 (AN)
78.	46733	Vijay Kumar	14.01.2008 (AN)
79.	77120	Dharmbir Kumar	14.01.2008 (AN)
80.	62416	K. Nirmal	14.01.2008 (AN)
81.	23358	Sohan Singh	14.01.2008 (FN)
82.	47342	Ms. Tuls Dungriyal	13.01.2008 (AN)
83.	45586	Rana Pratap Bharti	15.01.2008 (FN)
84.	46672	Mukesh Kumar Meena	14.01.2008 (FN)
85.	02771	Moatosh Dzuovichu	14.01.2008 (AN)

1	2	3	4
		S/Shri	
86.	31274	Ms. Amarapali Panthi	15.01.2008 (FN)
87.	52572	L. Samuel Jamir	14.01.2008 (AN)
88.	49305	Neeraj Meena	15.01.2008 (AN)
89.	14556	Gulshan Tirkey	14.01.2008 (AN)
90.	115930	Ms. Sobha Rawat	15.01.2008 (AN)
91.	56174	Sameer Verma	15.01.2008 (AN)
92.	26270	Devesh Kumar Tiwari	15.01.2008 (FN)
93.	25744	Harish Chandra Singh Negi	15.01.2008 (AN)
94.	96853	Ravi Prakash Singh	15.01.2008 (AN)
95.	13622	Bipin Kumar	15.01.2008 (FN)
96.	81304	Praveen Kumar	15.01.2008 (AN)
97.	19971	Jitendra Goswami	15.01.2008 (FN)
98.	75755	Rakesh Choudhary	15.01.2008 (AN)
99.	100990	Lalit Kishor	15.01.2008 (AN)
100.	75742	Hem Raj Meena	15.01.2008 (FN)

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarpur (Gurgaon) for training and have taken over the charge of their post on the dates against their names.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers. I)

The 11th March 2008

No. O. II 881/72-CRC (MOs)—On his superannuation from service, Dr. P. N. Bhat, IGP (Medical)/Medical superintendent, Composite Hospital, CRPF, Hyderabad, (IRLA-1089), has made over charge of his post from the afternoon of 31.01.2008. Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 31.01.2008 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers. I)

No. O. II. 3715/06-CRC (MOs)—Consequent on acceptance of his resignation from service by the competent authority, Dr. Vinod Rana, M.O. (IRLA-6981) 187 Bn, CRPF has handed over charge on 31.01.2008 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the force from 31.01.2008 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers. I)

No. O. II. 3612/03-CRC (MOs)—Consequent on acceptance of his resignation from service by the competent authority, Dr. Ajay Kumar Gupta, M.O. (IRLA-5763) 150 Bn, CRPF has handed over charge on 31.01.2008 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 31.01.2008 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers. I)

New Delhi-110003, the 4th March 2008

No. P. III-2/2008-Pers-3.—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of superannuation, Shri M. Raghavan Nair (IRLA-6015) of Group Centre, CRPF, Avadi, has relinquished charge of the post of Administrative Officer in the Afternoon of 31.01.2008.

K. K. SIVA PRASAD
Addl. DIGP (Pers-III)

**DIRECTORATE OF GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi-110003, the 12th March 2008

No. E-28017/1/Noti/2008/Pers-II/612.—Consequent upon his voluntary retirement from Govt. Service under rule-48 A of CCS (Pension) rules, 1972, Shri Sangram Singh, relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, SPM Hoshangabad (MP) in the forenoon of 29.02.2008.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

The 17th March 2008

No. E-28017/1/Noti/2008/Pers-II/646.—Consequent upon voluntary retirement under Rule-48A of CCS (Pension) rules, 1972 and retirement from Govt. Service on attaining the age of superannuation, following officers had relinquished the charge of the post from the date and Unit as shown against each :—

Sl. No.	Name	Post Held	Date	Unit
	(S/Sh.)			
1.	C. V. Iype (Superannuation)	AIG	31.01.2008	CISF WZ HQrs. Mumbai
2.	Baldev Singh (Voluntary)	Assistant Commandant	01.03.2008	CISF Unit ASG Lucknow
3.	Shaik Nazemud- din (Voluntary)	Assistant Commandant	06.03.2008	RTC Arakkonam

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

MINISTRY OF FINANCE

BANK NOTE PRESS

(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING
CORPORATION OF INDIA LIMITED)

Dewas, the 5th March 2008

No. BNP/C/44/98-I.—Shri D. K. Kekre, Deputy Technical Officer (Printing) is promoted to the post of Technical Officer (Printing & Platemaking) (Group-B Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on adhoc basis for a period of one year w.e.f. 01.03.2008.

D. V. GONDNALE
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(CIVIL AUDIT) ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500004, the 6th March 2008

No. Adm. I/Prom./5-4/2007-2008/131.—Principal Accountant General is pleased to promote the following Assistant Audit Officer (Civil) to officiate as Audit Officer (Civil) in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates mentioned against his name :

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No. Date	Date of assumption of charge
1.	Y. Mohan	217/29.02.2008	03.03.2008 FN

The above promotion is ordered without prejudice to the claims of his seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

He should exercise option for fixation of pay within one month from the date of his promotion in terms of Govt. of India, O.M. No. F. 7/1/80-Estt. (P. I) dated 26.09.1981 and F. 13/26/82-Estt (P. I) dated 08.02.1983.

C. SAILAJA
Sr. Dag (Admn.)

The 10th March 2008

No. Adm. I/Prom./8-132/2007-2008/132.—Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit officer with effect from the date noted against the name :

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Retirement
1.	Shri T. Narayana Rao	29.02.2008

C. SAILAJA
Sr. Dag (Admn.)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500004, the 11th March 2008

No. AG (A&E)/Admn. I/18-88/2007-08/208.—Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date shown against their names :

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A.O.
1.	Sh. A. R. Swamy	04.02.2008 FN.
2.	Smt. V. M. N. Rama Kumari	03.03.2008 FN.
3.	Sh. P. S. Nageswara Rao	03.03.2008 FN.

The promotions ordered are without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central/Administrative Tribunal.

E. SRINIWASAN
Sr. Dy. Accountant Gen. (Admn.)

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the March 2008

No. C-67/707.—The undermentioned Group 'C' Division-I (Surveyors/Survey Assistants) are promoted as Officer Surveyor, Group 'B' Post in Survey of India on regular basis in the Scale of Pay Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the dates as shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Sh. Rajeshwer Kumar (SC)	31.12.2007
2.	Sh. Samir Santra	06.11.2007
3.	Sh. A. Bhattacharjee	25.10.2007
4.	Sh. T. D. Semwal (ST)	26.12.2007

R. S. TANWAR
Brigadier

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 13th March 2008

No. PD/8(9)/2007-R-IV/26819.—The President is pleased to appoint the undermentioned individuals as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Bhabha Atomic Research Centre with effect

from the forenoon of September 1, 2007 in a temporary capacity until further orders :—

Sl. No. Name of the Officer

1. Kum. Kinchit Raj
2. Sh. Hemanta Kumar Swain
3. Kum. Smita Dixit
4. Kum. Nutan Gautam
5. Kum. Swati Ghosh

N. D. SHARMA
Controller

Mumbai-400085, the 13th March 2008

Ref. No. PD/4(4)/2001-R-III/2008/2160.—Controller, BARC appoints Smt. Radha Balasubramaniam, Accounts Officer, BARC, Mumbai to officiate as Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in this Research Center itself with effect from the forenoon of 1st January, 2007 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

Ref. PD/4(4)/2001-R-III/2008/2166.—Controller, BARC appoints Shri C. P. Morjal, Accounts Officer, BARC, Mumbai to officiate as Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in this Research Center itself with effect from the forenoon of 1st November, 2006 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400094, the 3rd March 2008

Ref. AERB/Adm./II/43/III.—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Shri Madhav Shridhar Sathe, Public Relations Assistant to officiate as Assistant Public Relations Officer on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- from 10.03.2008 (FN) till further orders.

V. M. THOMAS
Administrative Officer-III

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 4th March 2008

No. VECC/Per-YSP/801-391/473.—Director, Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Y. S. Prasad, Assistant Accounts Officer

to officiate as Accounts Officer (Scale of Pay of Rs. 7,500-250-12,000/-) in Variable Energy Cyclotron Centre with effect from the forenoon of October 22, 2007 until further orders.

S. B. BOSE
Administrative Officer-III

BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400705, the 7th March 2008

No. BRIT/9/17/AUG/07/34.—Chief Executive, BRIT appoints the undermentioned Scientific Assistants Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the same unit with effect from the forenoon of August 01, 2007 until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Sh. Ganapathy Shanmugam Mookkandi
2.	Sh. Kashinath Gajmal Vairalkar
3.	Sh. Namperiel Chacko Joseph

O. K. SATHIAN
Administrative Officer-III

Navi Mumbai-400705, the 11th March 2008

No. BRIT/9/17/AUG/07/37.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'D' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the same unit with effect from the forenoon of August 01, 2007 until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Smt. Papia Hazra
2.	Sh. Vishwas Vinayak Murhekar

A. K. KOHLI
Chief Executive

No. BRIT/9/17/AUG/07/38.—The President is pleased to appoint Smt. Sujata Saha Das, Scientific Officers/Engineers Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same unit with effect from the forenoon of August 01, 2007 until further orders.

A. K. KOHLI
Chief Executive

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500016, the 5th March 2008

No. AMD-16/1/2001-Rect/Vol. III/1668.—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri R. Balakrishnan, Assistant (Scale of pay of Rs. 5,500-175-9,000/-) Department of Atomic Energy, Mumbai as Assistant Accounts Officer (Rs. 7,450-225-11,500/-) in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, Shillong with effect from the forenoon of 17.10.2007 until further orders.

G. M. NAIR
Chief Administrative & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 4th March 2008

No. A-32013/2/2007-F.II.—The President is pleased to appoint Shri Maneesh Kumar, Assistant Director of Air Safety in the Office of the Director General of Civil Aviation to the post of Deputy Director of Air Safety (E) with effect from 18.1.2008 in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad-hoc basis for further period of six months or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

MEENA SHARMA
Dy. Dir. of Administration

MINISTRY OF WATER RESOURCES CENTRAL GROUND WATER BOARD

NH-IV Faridabad, the 4th March 2008

No. 3-1609/2008-Sci.-Estt/1419.—On the recommendations of the DPC (Group-B Gazetted), the following, Cartographer has been promoted to the post of Senior Cartographer (Group-B, Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown as under :—

Sl. No.	Name of Officer	Place of posting	Date of Joining
1.	Sh. A. K. Saxena	CGWB, CR, Nagpur	11.02.2008 (FN)

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

S. K. SINHA
Dir. (Admin.)

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 26th February 2008

No. F. 48-Ad. (AT)/2008.—Shri C. K. Sharma, Hindi Translator (Jr.), Press Information Bureau, Prathistha Bhavan,

CGO Building, Annexe, 101, M. K. Road, Mumbai-400020 is appointed to officiate as Hindi Officer in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai with effect from the forenoon of 15th February, 2008 on deputation basis for a period of one year on the usual terms and conditions of deputation as contained in the Govt. of India, Department of Personnel and Training, O.M. No. 2/29/91-Estt (Pay-II) dated 5.1.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
following Companies :—

Kanpur-208001, the 13th March 2008

No. LC/560(5)/2212.—"Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication, these companies shall stand dissolved":—

Sl. No.	Co. No.	Name of Company
1	2	3
1.	15028	M/s. Stove Chalkers (India) Limited.
2.	15118	M/s. Dairy Milk Foods Limited.
3.	15266	M/s. S. B. Petroleum Limited.
4.	15318	M/s. Kisan Fans (India) Limited.
5.	15351	M/s. Meryil Lyanch and Fairros Pharmaceuticals Limited.
6.	15364	M/s. Upper India Employers Association.
7.	15410	M/s. Laxmi Oxygen Limited.
8.	15452	M/s. Sterling Oxygen India Limited.
9.	15460	M/s. S. B. (LPG) Bottling Limited.
10.	15512	M/s. U. P. Phosphate Limited.
11.	15582	M/s. Sauhard (India) Commercial Co. Limited.
12.	15623	M/s. Rajya Products Limited.
13.	15664	M/s. Welcome Medicare Limited.
14.	15724	M/s. International Petroleum (India) Limited.
15.	15808	M/s. Sriramakrishna Fertilisers and Chemicals Limited.
16.	15927	M/s. Godwin Engineering India Limited.

1	2	3
17.	15955	M/s. Mid-East Foods Limited.
18.	16018	M/s. Designer Softwares Limited.
19.	16092	M/s. Shell Petroleum (India) Limited.
20.	16261	M/s. Sunrise Copper Wire Industries Limited.
21.	16298	M/s. Standrads Sugar Mills India Limited.
22.	16626	M/s. Anmol Traders Private Limited.
23.	16803	M/s. Mak Petro Products (India) Limited.
24.	16829	M/s. Amit Petroleum Products Limited.
25.	16920	M/s. Spectrum Chemicals (India) Limited.
26.	17135	M/s. Peezo Gutka Limited.
27.	17225	M/s. Midlinks Marketing Limited.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
following Companies :—

Patna-800001, the 11th March 2008

No. ROC/PAT/560—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Regd. No.	Name of the Company
1.	557	M/s. Bihar Cement Pipe Company Private Limited.
2.	5815	M/s. Marina Inns Private Limited.
3.	5829	M/s. Shivganga Films Private Limited.
4.	5844	M/s. Purusattam & Associates Private Limited.
5.	5902	M/s. Haldiram Mukesh Kumar Confectionery (India) Private Limited.

K. PRASAD
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ADI Enterprises Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00241.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. ADI Enterprises Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supriya Alum Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00261.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Supriya Alum Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Constellation Impex (India) Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00258.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Constellation Impex (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nevichem Polymer Industries Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00248.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nevichem Polymer Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Malik Organics Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00245.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Malik Organics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kateel Chemis Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00214.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kateel Chemis Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun Organic (Halogen) Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00205.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sun Organic (Halogen) Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goodrath Petro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00202.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Goodrath Petro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kallin Intermediate Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00198.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kallin Intermediate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Floors India Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00192.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Floors India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Girisam Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00254.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Girisam Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Southern Halochem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00185.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Southern Halochem Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasutara Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00177.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vasutara Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagwani Dyechem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00169.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bhagwani Dyechem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jainsons Adhesive Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00163.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jainsons Adhesive Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pharma Intel (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00159.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Pharma Intel (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Spartekoleo Chem Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00150.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Spartekoleo Chem Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hemnar Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00145.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hemnar Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chitra Drugs and Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00137.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chitra Drugs and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Soli Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00133.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Soli Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashgourd Overseas Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00116.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ashgourd Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Robin Labs Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00119.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Robin Labs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vinod Organics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00113.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vinod Organics Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shilpa Dye-Intermediates Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00110.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shilpa Dye-Intermediates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vidita Chemitex Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00107.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vidita Chemitex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Martan Chemicals Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00104.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Martan Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chemiline (India) Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00101.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chemiline (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaan Clay Coaters Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00098.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kaan Clay Coaters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Atlantic Life Care Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00095.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Atlantic Life Care Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saffire Pigments Private Limited
Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00092.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Saffire Pigments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arco Industrial Organic Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00089.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Arco Industrial Organic Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Breeze Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00086.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Breeze Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satellite Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00083.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Satellite Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Garrys Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00080.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Garrys Exports Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Happy Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00077.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Happy Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nath Pharma Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00072.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nath Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrirang Agro-Chem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00068.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shrirang Agro-Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raiyani Acids and Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00063.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Raiyani Acids and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nishita Texchem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00059.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nishita Texchem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dianilins Organics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00055.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dianilins Organics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Armour Bio-Tech Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00052.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Armour Bio-Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daiwat Chemical Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00048.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Daiwat Chemical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ranjeet Chemicals and Oil Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00044.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ranjeet Chemicals and Oil Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hepta Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00041.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hepta Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pollar Organics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00036.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Pollar Organics Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amos Petrochemicals and Alkalies Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00200.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Amos Petrochemicals and Alkalies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Olfac Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00154.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Olfac Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kusum Dye Chem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00148.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kusum Dye Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Amines Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00140.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sai Amines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Pharma Indiana Laboratories Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00126.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. New Pharma Indiana Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nanavati Organics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00119.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nanavati Organics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajay Kemibond Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00110.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ajay Kemibond Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Regal Organics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00102.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Regal Organics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Quest Organics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00096.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Quest Organics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Innovative Silicones Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00087.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Innovative Silicones Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Omega Chlorochem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00080.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Omega Chlorochem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambar Plasticizers Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00076.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ambar Plasticizers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. White Rock Dychem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00069.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. White Rock Dychem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prescient Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00062.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Prescient Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhav Chem-Tech Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00059.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Madhav Chem-Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anay Traders Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00053.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Anay Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Heramb Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00050.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Heramb Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Northern Organics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00044.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Northern Organics Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Progressive Products (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00034.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Progressive Products (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parekh Dyes and Intermediates Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00028.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Parekh Dyes and Intermediates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ekashish Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00031.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ekashish Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Shree Chakradhar Dyes Intermediate and Chemical Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00025.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shree Chakradhar Dyes Intermediate and Chemical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balaji Krishi Rasayan India Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00019.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Balaji Krishi Rasayan India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jasmine Chemical Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00016.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jasmine Chemical Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Engelhard Highland Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01002.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Engelhard Highland Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arizona Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00260.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Arizona Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nukem Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00478.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nukem Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cecil Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00713.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Cecil Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Huston Petrochemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01046.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amol Milk and Milk Products (India) Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00105/HDZ/1530

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Amol Milk and Milk Products (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bachawat Agro-Tech Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00025/HDZ/1531

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bachawat Agro-Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navyug Graphics Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00097/HDZ/1532

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Navyug Graphics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarda Flex Pack Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00059/HDZ/1533

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sarda Flex Pack Limited unless cause is shown to the

15—516 GI/2007

contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Energy Resources Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00058/HDZ/1534

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Green Energy Resources Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navdeep Plantations Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00057/HDZ/1535

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Navdeep Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Samatha Information Systems Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00054/HDZ/1536

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Samatha Information Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Swami Samarth Multy Services Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00053/HDZ/1537

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shri Swami Samarth Multy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jezreel Agro-Products Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00046/HDZ/1538
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jezreel Agro-Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ziesel Chemicals Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00428/NBK/1539
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ziesel Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maimar Constructions Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00034/HDZ/1540
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Maimar Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sawa Agrotech Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00041/HDZ/1541
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sawa Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kisan Mini Sugar Plant Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00039/HDZ/1542
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kisan Mini Sugar Plant Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Classic Touch Automation Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00436/NBK/1543
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Classic Touch Automation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Soft 'M' S Infosystems Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00379/NBK/1544
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Soft 'M' S Infosystems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arjun Technicos Company Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00385/NBK/1545
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Arjun Technicos Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B Amit Constructions (Pune) Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00064/HZ/1546
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. B Amit Constructions (Pune) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Techno-Proxima Impex Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00403/NBK/1547
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Techno-Proxima Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Soniyaji Pharmaceuticals Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00337/NBK/1548.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Soniyaji Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shalini Granites Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00091/MMM/1549 (i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shalini Granites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kajale Associates Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00321/NBK/1550
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kajale Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Snap Info Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00296/HZ/1551
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Snap Info Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anumon Agro Farms Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00297/HDZ/1552
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Anumon Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Scientific Machine Plants Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00011/HDZ/1553
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Scientific Machine Plants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Urmi Housing Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00294/HDZ/1554
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Urmi Housing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kadabgaon Electro-All Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00291/HDZ/1555
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kadabgaon Electro-All Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganga Tourism Development Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00167/HDZ/1556
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ganga Tourism Development Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Humanity Cotton Processors Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00150/HDZ/1557
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Humanity Cotton Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhayreshwar Engineering Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00145/HDZ/1558
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dhayreshwar Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Huston Petrochemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manish Dye Chem Products Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01042.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Manish Dye Chem Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hemjayant Pharmaceuticals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01037.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hemjayant Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elvino Dye Chem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01033.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Elvino Dye Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karmveer Kakasaheb Wagh Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01025.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Karmveer Kakasaheb Wagh Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalyani Natural Products Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01020.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kalyani Natural Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MC Clelland Enviro Infrastructure Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01013.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. MC Clelland Enviro Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sinodeen (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01006.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sinodeen (India) Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manish Infin Services Private Limited

Mumbai-400002, the 16th November 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00274.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Manish Infin Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Data Systems (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 28th February 2008

No. 9/560/11057.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the name of M/s. Data Systems (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shelatkar Constructions Private Limited

Mumbai-400002, the 29th February 2008

No. 560/100.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shelatkar Constructions Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Medini Exports Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00035/HDZ/1512
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Medini Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Kisan
Kalpataru Live Stock Estate and Farms Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00107/HDZ/1513
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kisan Kalpataru Live Stock Estate and Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Mahadeo Sugarcane Process Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00032/HDZ/1514
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shri Mahadeo Sugarcane Process Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Watech Purifications (India) Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00027/HDZ/1515
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Watech Purifications (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saz Foundries Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00026/HDZ/1516
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of the
M/s. Saz Foundries Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neesh Farms Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00023/HDZ/1517
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of the
M/s. Neesh Farms Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off from the Register and the said
company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Leelashri Realestates Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00020/HDZ/1518
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of the
M/s. Leelashri Realestates Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahidhar Developers Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00019/HDZ/1519
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of the
M/s. Mahidhar Developers Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anamay Developers Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00017/HDZ/1520
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of the
M/s. Anamay Developers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeevan Raksha Chemicals Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00014/HDZ/1521
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of the
M/s. Jeevan Raksha Chemicals Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gazaala Farms Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00012/HDZ/1522
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of the
M/s. Gazaala Farms Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arpita Aqua Purifiers Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00004/HDZ/1523

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Arpita Aqua Purifiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Glowcom Systems Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00005/HDZ/1524

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Glowcom Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bageecha Properties Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00003/HDZ/1525

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bageecha Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ruchi Land Promoters Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00011/HDZ/1526

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ruchi Land Promoters Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sukrut Realtors Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00007/HDZ/1527

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sukrut Realtors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shewani Pherwani Textiles Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00006/HDZ/1528

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shewani Pherwani Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Urja Equipments Private Limited

Pune-411004, the 19th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00106/HDZ/1529

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Urja Equipments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vertex Plastics Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00139/HDZ/1559

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vertex Plastics Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nagane Farm Asset and Credit Company Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00101/NBK/1560

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nagane Farm Asset and Credit Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M and S Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00099/NBK/1561

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. M and S Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Floritech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00088/NBK/1562

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Western Floritech Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ratnatraya Plastics Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00084/NBK/1563

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ratnatraya Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kadambary Engineering (Pune) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00083/NBK/1564

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kadambary Engineering (Pune) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dolphin Filaments Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00044/NBK/1565

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dolphin Filaments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mediaway Software Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00043/NBK/1566

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mediaway Software Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrirang Bricks Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00040/NBK/1567
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shrirang Bricks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nirmitec Engineers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00039/NBK/1568
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nirmitec Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Sagar Milk and Milk Products Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00038/NBK/1569
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shiv Sagar Milk and Milk Products Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramling Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00036/NBK/1570
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ramling Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suma Business Consultants Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00035/NBK/1571
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Suma Business Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. P D Precision Castings Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00032/NBK/1572
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. P D Precision Castings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahalaxmi Plaster Manufacturing Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00028/NBK/1573
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mahalaxmi Plaster Manufacturing Private Limited unless

cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bio Life Pharmaceuticals (India) Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00136/NBK/1574

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bio Life Pharmaceuticals (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dimensions Software Solutions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00132/NBK/1575

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dimensions Software Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Metel Exim (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00131/NBK/1576

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Metel Exim (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Vasant Dental Services Company Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00113/NBK/1577

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sai Vasant Dental Services Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragati Forests (India) Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00105/NBK/1578

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Pragati Forests (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hadapsar Vegetables and Fruits Exports Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00147/RVS/1579

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hadapsar Vegetables and Fruits Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dyna Electric Motors Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00148/RVS/1580

(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dyna Electric Motors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Victor Mopds Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/Sec. 560/2007/00149/RVS/1581
(i).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of the
M/s. Victor Mopds Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off from the Register and the said
company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

CORRIGENDA

No. ROC/WB/IPC/560 (SM)/07/730/dated the 17th March
2008 :—

Sl. No.	Co. Regn. No.	Name of the Company	Remarks
52	21-37419	Awaz Prakasan Pvt. Ltd.	Proceedings for striking off the name of the company under Suo Moto has been rejected and the name shown at Sl. No. 41 in the list W.E. dated 13.10.2007 to 19.10.2007 published in the Gazette of India, Part- III, Section-I is hereby deleted and treated as "Active" accordingly.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

No. ROC/WB/IPC/560 (SM)/07/173/dated the 17th March
2008 :—

Sl. No.	Co. Regn. No.	Name of the Company	Remarks
1	2	3	4
471	21-86302	M/s. Jagat Janani Agro Plantation Pvt. Ltd.	Proceedings for striking off the name of the company under Suo Moto has been rejected and the name shown at Sl. No. 471 in the list W.E. dated 15.09.2007 published in the Gazette of India, Part-III, Section-I is

1	2	3	4
			hereby deleted and treated as "Active" accordingly.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Hyderabad, the 10th February 2008

No. RAP/560(3)/Suo Moto/DSAT-JTA/2008—Notice is
hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of
the Companies Act, 1956 that on expiry of three months
from the date hereof, the names of the following companies
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register maintained by this office and the said
Companies will be dissolved.

Sl. No.	Company Regn.	Company Name
1	2	3
1.	015687	M/s. Bharani Aqua Farms Ltd.
2.	020858	M/s. Penguin Floraa Ltd.
3.	020869	M/s. Sri Bhagya Stationery Exports Ltd.
4.	020870	M/s. Genius Packaging Ltd.
5.	017741	M/s. Niko Oil Resources (India) Ltd.
6.	020885	M/s. Kota Exports Ltd.
7.	020667	M/s. Viklik Prabha Connotics Ltd.
8.	017371	M/s. GVK Telecom Ltd.
9.	011082	M/s. Visakha Proteins Ltd.
10.	011093	M/s. Sirs Curatives Pvt. Ltd.
11.	011094	M/s. Elegance Granites Pvt. Ltd.
12.	011110	M/s. Hind Sterling Impex Pvt. Ltd.
13.	011121	M/s. Hyderabad Legal Consultancy Pvt. Ltd.
14.	011128	M/s. Chetana Salts and New Chemicals Pvt. Ltd.
15.	011140	M/s. Bhagyanagar Projects Pvt. Ltd.
16.	011148	M/s. Hallmarks Marketing and Services Pvt. Ltd.
17.	011149	M/s. Bhuvikas Real Estates Pvt. Ltd.
18.	011190	M/s. Divyaslakti Marketing Pvt. Ltd.
19.	011197	M/s. Amrutha Poultry Farm Pvt. Ltd.

1	2	3
20.	015452	M/s. Koratla Builders India Ltd.
21.	017484	M/s. Unitech Aqua-Farms Ltd.
22.	011003	M/s. Khadel Electronic Systems Pvt. Ltd.
23.	011008	M/s. Swift (India) Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
24.	011012	M/s. Vac-Form Systems Pvt. Ltd.
25.	011036	M/s. Classic Minerals and Granites Pvt. Ltd.
26.	011108	M/s. Gopisetty Builders and Engineers Pvt. Ltd.
27.	011048	M/s. Rainbow Ceramics Ltd.
28.	011046	M/s. Sri Sri Hotels Pvt. Ltd.
29.	011056	M/s. Panchamukha Ganapathi Ashcrete Ltd.
30.	011060	M/s. Suguna Synthetics Pvt. Ltd.
31.	011072	M/s. Prashanta Engineers and Builders Pvt. Ltd.
32.	011079	M/s. Andhra Tea Company Pvt. Ltd.
33.	011022	M/s. Himalaya Agencies Pvt. Ltd.
34.	011151	M/s. Jhansi Agro Products Pvt. Ltd.
35.	011152	M/s. Soorya Video Movies Pvt. Ltd.
36.	011157	M/s. Inter Agencies Pvt. Ltd.
37.	011167	M/s. City Automotives Pvt. Ltd.
38.	011187	M/s. First Indenting Company Pvt. Ltd.
39.	011188	M/s. Zenith Sai Krishna Bolts and Nuts Pvt. Ltd.
40.	011131	M/s. Chaitanya Educational Institutions Pvt. Ltd.
41.	011133	M/s. Vijaya Rubbers Pvt. Ltd.
42.	011120	M/s. Orient Rockmin Pvt. Ltd.
43.	011098	M/s. Ashutosh Laundry and Cleaners Pvt. Ltd.
44.	011087	M/s. Sai Plastics Pvt. Ltd.
45.	011074	M/s. Needs Publications Pvt. Ltd.
46.	011204	M/s. Gulfond Ice Pvt. Ltd.
47.	011032	M/s. Kalayani Cine Exhibitors Pvt. Ltd.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Hyderabad-500195, the 10th February 2008

No.RAP/560(3)/Suo Motu/DSAT-JTA/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register maintained by this office and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Company Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	010001	M/s. Margadarshi Poultry Pvt. Ltd.
2.	010002	M/s. Yashodhara Poultry Farms Pvt. Ltd.
3.	010005	M/s. Paragon Publications Pvt. Ltd.
4.	010007	M/s. Aparna and Aruna Farm Pvt. Ltd.
5.	010009	M/s. Micro Ant Systems Pvt. Ltd.
6.	010016	M/s. Sanjeevini Ferro Alloys Pvt. Ltd.
7.	010019	M/s. Gouthami Poultry Pvt. Ltd.
8.	010022	M/s. Kanishka Graphics Pvt. Ltd.
9.	010032	M/s. Azco Impex Pvt. Ltd.
10.	010033	M/s. Bhavapuri Poultry Pvt. Ltd.
11.	010040	M/s. Fabcom Systems Pvt. Ltd.
12.	010046	M/s. Sriven Export Pvt. Ltd.
13.	010048	M/s. Kiran Granites Pvt. Ltd.
14.	010049	M/s. Unitech Silicates Pvt. Ltd.
15.	010056	M/s. Embecar Share Consultants Pvt. Ltd.
16.	010060	M/s. Kalyani Poultry Pvt. Ltd.
17.	010068	M/s. Kashco Climatique Pvt. Ltd.
18.	010071	M/s. Agristar Chemicals Pvt. Ltd.
19.	010082	M/s. Samatha Poultry Pvt. Ltd.
20.	010085	M/s. Inter Ocean Import and Exports Pvt. Ltd.
21.	010096	M/s. Multigain Services Pvt. Ltd.
22.	010098	M/s. Sri Rama Anjaneya Poultry Pvt. Ltd.
23.	010099	M/s. Syamala Poultry Pvt. Ltd.
24.	010111	M/s. Status Builders and Developers Pvt. Ltd.
25.	010118	M/s. Alapati Poultry Pvt. Ltd.
26.	010135	M/s. Kuppa Chemicals Pvt. Ltd.

D. RAMAKRISHNAN
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

1	2	3	1	2	3
27.	010139	M/s. Fine Arc Electrodes Pvt. Ltd.	60.	010296	M/s. Usha Poultries Pvt. Ltd.
28.	010145	M/s. Skalmyte Granites Pvt. Ltd.	61.	010298	M/s. Express Corporate Add Allied Services Pvt. Ltd.
29.	010153	M/s. Madehej Fruit Processors Pvt. Ltd.	62.	010303	M/s. Venkateswara Boards Pvt. Ltd.
30.	010182	M/s. Harini Management Consultants Pvt. Ltd.	63.	010309	M/s. Hartford Medical Pvt. Ltd.
31.	010184	M/s. Sri Pavani Builders Pvt. Ltd.	64.	010312	M/s. Ranga Poultries Pvt. Ltd.
32.	010185	M/s. Avinash Fibers Pvt. Ltd.	65.	010318	M/s. Civicon Engineers Pvt. Ltd.
33.	010187	M/s. Sunrise Hatcheries Pvt. Ltd.	66.	010320	M/s. Rajkamal Wines Pvt. Ltd.
34.	010190	M/s. Eskay Exim Pvt. Ltd.	67.	010321	M/s. Arun and Mulch Poultries Pvt. Ltd.
35.	010192	M/s. Vidyut Roadlines Pvt. Ltd.	68.	010324	M/s. Varun Agri Business Pvt. Ltd.
36.	010193	M/s. Navachaitanya Poultries Pvt. Ltd.	69.	010325	M/s. Coastal Poultries Pvt. Ltd.
37.	010202	M/s. Aroti Engineering Pvt. Ltd.	70.	010326	M/s. Dwaraka Poultries Pvt. Ltd.
38.	010210	M/s. Uma Constructions Pvt. Ltd.	71.	010337	M/s. Siddhartha Granites Pvt. Ltd.
39.	010213	M/s. Sai Kranthi Transporters Pvt. Ltd.	72.	010356	M/s. Visioneer Engineering Pvt. Ltd.
40.	010217	M/s. Antariksh Marketing and Engineering Pvt. Ltd.	73.	010359	M/s. Well Worth Mines and Minerals Pvt. Ltd.
41.	010229	M/s. Coastal Tiles and Moulds Pvt. Ltd.	74.	010360	M/s. Sri Choudary Agencies Pvt. Ltd.
42.	010231	M/s. Hartij Beverages Pvt. Ltd.	75.	010363	M/s. Vijayawada Computer Centre Pvt. Ltd.
43.	010232	M/s. Kohinoor Marketing and Exports Pvt. Ltd.	76.	010368	M/s. Pen Portraits Pvt. Ltd.
44.	010240	M/s. Rama Krishna Estates and Farms Pvt. Ltd.	77.	010369	M/s. Himabindu Foods Pvt. Ltd.
45.	010245	M/s. Rajadhani Plastics (India) Pvt. Ltd.	78.	010371	M/s. Andhra Pradesh Sulphates Pvt. Ltd.
46.	010248	M/s. Sri Satyanarayana Poultries Pvt. Ltd.	79.	010372	M/s. Swarnamukhi Constructions Pvt. Ltd.
47.	010249	M/s. Sri Anjaneya Poultries Pvt. Ltd.	80.	010374	M/s. Sunny Bottlers Pvt. Ltd.
48.	010255	M/s. Emmar Electronics Pvt. Ltd.	81.	010375	M/s. Mohankheda Agro Products Pvt. Ltd.
49.	010257	M/s. Gramodaya Poultries Pvt. Ltd.	82.	010381	M/s. Arusoft Wear Consultants Pvt. Ltd.
50.	010261	M/s. Rasanandini Tele Products Pvt. Ltd.	83.	010401	M/s. Golden Agro Oceanic Products Ltd.
51.	010264	M/s. Katar Granites Ltd.	84.	010402	M/s. Nafrees Hotels Pvt. Ltd.
52.	010266	M/s. Morning Star Constructions Pvt. Ltd.	85.	010405	M/s. Siva Chemicals Pvt. Ltd.
53.	010267	M/s. Sujatha Engineering Pvt. Ltd.	86.	010428	M/s. Sri Reghavendra Heavy Engineering Works Pvt. Ltd.
54.	010269	M/s. Gautham Tincan and Metal Works Pvt. Ltd.	87.	010436	M/s. Machiraju Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
55.	010273	M/s. Mustang Marketing Company Pvt. Ltd.	88.	010441	M/s. Radha Krishna Farms Pvt. Ltd.
56.	010278	M/s. Sakala Engineering Company Pvt. Ltd.	89.	010443	M/s. Sree Lakshmi Sric Farms Pvt. Ltd.
57.	010279	M/s. Trendy Computer Spot Pvt. Ltd.	90.	010445	M/s. Mahavir Electronics and Plastics Pvt. Ltd.
58.	010285	M/s. New Modes Equipments Pvt. Ltd.	91.	010452	M/s. Shibhumi Consultants Pvt. Ltd.
59.	010288	M/s. SOL Antibiotics Ltd.	92.	010454	M/s. Kishore Fabricators Pvt. Ltd.

1	2	3
93.	010455	M/s. Sri Divya Datta Fruits Pvt. Ltd.
94.	010456	M/s. Sri Divya Datta Constructions Pvt. Ltd.
95.	010468	M/s. Omni Craft People Pvt. Ltd.
96.	010479	M/s. Mega Teletrac Pvt. Ltd.
97.	010482	M/s. Katyayani Exports Pvt. Ltd.
98.	010494	M/s. Southern Radiators Pvt. Ltd.
99.	010501	M/s. Vasavi Electronics Pvt. Ltd.
100.	010504	M/s. Mohemun Communication and Systems Pvt. Ltd.
101.	010506	M/s. Priyanka Granites Pvt. Ltd.
102.	010510	M/s. Tejesh Farms Pvt. Ltd.
103.	010516	M/s. Nikhila Pharma Pvt. Ltd.
104.	010526	M/s. Wintec Engineering Pvt. Ltd.
105.	010528	M/s. Kay Peel Marbles and Granites Pvt. Ltd.
106.	010535	M/s. Mutha Wires and Plastics Pvt. Ltd.
107.	010536	M/s. Bharani Estates Pvt. Ltd.
108.	010537	M/s. Priyanka Auto Agencies Pvt. Ltd.
109.	010543	M/s. Panchajanya Chemicals Pvt. Ltd.
110.	010545	M/s. Mahendra Chemicals Pvt. Ltd.
111.	010546	M/s. Kumar Fisheries Pvt. Ltd.
112.	010552	M/s. Deccan Polylams Pvt. Ltd.
113.	010555	M/s. Classic Seeds and Marines Pvt. Ltd.
114.	010556	M/s. Reliable Seeds and Marines Pvt. Ltd.
115.	010559	M/s. Krishna Chaitanya Graphics Pvt. Ltd.
116.	010569	M/s. East Coast Marketing Pvt. Ltd.
117.	010671	M/s. Veekay Packaging Ventures Pvt. Ltd.
118.	010578	M/s. Kitti Engineers Pvt. Ltd.
119.	010579	M/s. Babbulu Poultries Pvt. Ltd.
120.	010592	M/s. Prabhu Electronics Pvt. Ltd.
121.	010595	M/s. Southtech Marketing Pvt. Ltd.
122.	010597	M/s. Vaizag Marketing Pvt. Ltd.
123.	010600	M/s. Kavita Chemicals and Drugs Pvt. Ltd.
124.	010603	M/s. Greenview Amusement Parks Ltd.
125.	010604	M/s. Pioneer Granites Pvt. Ltd.
126.	010611	M/s. Hermon Granites Pvt. Ltd.
127.	010620	M/s. Sudha Agro Feeds Pvt. Ltd.

1	2	3
128.	010622	M/s. Raven Impex Pvt. Ltd.
129.	010623	M/s. HML Polymers Pvt. Ltd.
130.	010626	M/s. Abhivruddi Agro Farms Pvt. Ltd.
131.	010627	M/s. Vedullapalli Sea Foods Pvt. Ltd.
132.	010629	M/s. Swastik Titanium Ltd.
133.	010634	M/s. Hina Agro Proteins Pvt. Ltd.
134.	010635	M/s. Modern Egg Farms Pvt. Ltd.
135.	010638	M/s. Naimisha Engineering Pvt. Ltd.
136.	010642	M/s. Hotel Anand Nivas Pvt. Ltd.
137.	010645	M/s. Dharani Stones Pvt. Ltd.
138.	010653	M/s. Manish Plastics Pvt. Ltd.
139.	010658	M/s. K.M. Export Ways India Pvt. Ltd.
140.	010660	M/s. Allwyn Agro Appliances Ltd.
141.	010676	M/s. Lorven Travels Pvt. Ltd.
142.	010677	M/s. Kasmo-Drei Pvt. Ltd.
143.	010680	M/s. Sono Printers Pvt. Ltd.
144.	010688	M/s. Radha Krishna Wines Pvt. Ltd.
145.	010690	M/s. Krishnarajuna Farms Pvt. Ltd.
146.	010692	M/s. Essennvee Builders and Market Promoters Pvt. Ltd.
147.	010695	M/s. Thermo Plastic Formings Pvt. Ltd.
148.	010696	M/s. Bhadurka Farms Pvt. Ltd.
149.	010697	M/s. Sobha Detergents Pvt. Ltd.
150.	010705	M/s. Aparna Dairy Sheep Goat and Poultry Pvt. Ltd.
151.	010717	M/s. Sri Gajalakshmi Farms Pvt. Ltd.
152.	010718	M/s. Hari-Hara Farms Pvt. Ltd.
153.	010729	M/s. Spark Granite Pvt. Ltd.
154.	010732	M/s. Shree Jagannath Breweries Ltd.
155.	010736	M/s. Sowbhagya Agro Pvt. Ltd.
156.	010741	M/s. Cost Computers Pvt. Ltd.
157.	010742	M/s. Nagarjuna Techtrans Pvt. Ltd.
158.	010748	M/s. Hemadri Farms Pvt. Ltd.
159.	010751	M/s. Sri Siddharth Aluminium Works Pvt. Ltd.
160.	010760	M/s. Ashirwad Farms Pvt. Ltd.
161.	010770	M/s. Tiger Marine Feeds Pvt. Ltd.
162.	010776	M/s. Matrix Multi Services India Pvt. Ltd.

1	2	3
163.	010782	M/s. Roots India Services Pvt. Ltd.
164.	010792	M/s. Mayura Marbles and Chemicals Pvt. Ltd.
165.	010802	M/s. Suraksha Thread and Rubber Pvt. Ltd.
166.	010826	M/s. Excel Moulds Pvt. Ltd.
167.	010827	M/s. Solventh Consultancy Services Pvt. Ltd.
168.	010828	M/s. Archana Wires Pvt. Ltd.
169.	010829	M/s. Shilpa Bricks and Floorings Pvt. Ltd.
170.	010831	M/s. Zodiac Granites Pvt. Ltd.
171.	010836	M/s. Aishwarya Farms Pvt. Ltd.
172.	010856	M/s. Anand Packaging Pvt. Ltd.
173.	010863	M/s. Chaturbhuja Engineers Pvt. Ltd.
174.	010864	M/s. Janapriya Super Bazar Ltd.
175.	010872	M/s. Ramesh Marketing Pvt. Ltd.
176.	010873	M/s. Bin Mabfooz Farms Pvt. Ltd.
177.	010874	M/s. Southern Distilleries Pvt. Ltd.
178.	010875	M/s. Nutek Engineers Pvt. Ltd.
179.	010876	M/s. Grow Well Exim and Consultants Pvt. Ltd.
180.	010878	M/s. Rakesh Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
181.	010879	M/s. Vizag Medical Centre Pvt. Ltd.
182.	010880	M/s. Supermag Wires Pvt. Ltd.
183.	010886	M/s. Modehij Expoinporter Pvt. Ltd.
184.	010888	M/s. Sai Deepa Farms Pvt. Ltd.
185.	010892	M/s. Gogineni Granites Pvt. Ltd.
186.	010894	M/s. Sri Siddeswara Automobile Pvt. Ltd.
187.	010905	M/s. Apray Export Pvt. Ltd.
188.	010906	M/s. Superfine Boards India Ltd.
189.	010908	M/s. Nagendra Poultry Farms Pvt. Ltd.
190.	010911	M/s. Sri Ranjana Poultry Farms Pvt. Ltd.
191.	010912	M/s. Kaluvala Farms Pvt. Ltd.
192.	010913	M/s. Sri Sai Vamsi Farms Pvt. Ltd.
193.	010918	M/s. Kinnera Marbles Pvt. Ltd.
194.	010920	M/s. Chinulapati Electronics Pvt. Ltd.
195.	010934	M/s. Sangameswara Cold Process Pvt. Ltd.
196.	010940	M/s. Saranya Impex Pvt. Ltd.
197.	010945	M/s. Intersoft Systems India Ltd.

1	2	3
198.	010948	M/s. Vessma Data Services Pvt. Ltd.
199.	010957	M/s. Gomati Exports and Imports Pvt. Ltd.
200.	010959	M/s. Provin Pharma Pvt. Ltd.
201.	010960	M/s. Shiva Shakti Super Market Pvt. Ltd.
202.	010963	M/s. Taskeen Engineers Pvt. Ltd.
203.	010965	M/s. Giridhari Farms Pvt. Ltd.
204.	010969	M/s. South India Pipes Pvt. Ltd.
205.	010981	M/s. P. T. Leeroy Leathers Pvt. Ltd.
206.	010983	M/s. Idreal Trading Company Pvt. Ltd.
207.	010986	M/s. Maharshi Electrosonics Pvt. Ltd.
208.	010994	M/s. Saraswathi Hallow Bricks Pvt. Ltd.
209.	011003	M/s. Khadel Electronic Systems Pvt. Ltd.
210.	011008	M/s. Swift (India) Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
211.	011012	M/s. Vac-Form Systems Pvt. Ltd.
212.	011022	M/s. Himalaya Agencies Pvt. Ltd.
213.	011036	M/s. Classic Minerals and Granites Pvt. Ltd.
214.	011046	M/s. Sri Sri Hotels Pvt. Ltd.
215.	011048	M/s. Rainbow Ceramics Ltd.
216.	011056	M/s. Panchamukha Ganapathi Asherete Ltd.
217.	011060	M/s. Suguna Synthetics Pvt. Ltd.
218.	011072	M/s. Prashanta Engineers and Builders Pvt. Ltd.
219.	011079	M/s. Andhra Tea Company Pvt. Ltd.
220.	011082	M/s. Visakha Proteins Ltd.
221.	011093	M/s. Sirs Curatives Pvt. Ltd.
222.	011094	M/s. Elegance Granites Pvt. Ltd.
223.	011108	M/s. Gopisetty Builders and Engineers Pvt. Ltd.
224.	011110	M/s. Hind Sterling Impex Pvt. Ltd.
225.	011121	M/s. Hyderabad Legal Consultancy Pvt. Ltd.
226.	011128	M/s. Chetana Salts and New Chemicals Pvt. Ltd.
227.	011140	M/s. Bhagyanagar Projects Pvt. Ltd.
228.	011148	M/s. Hallmarks Marketing and Services Pvt. Ltd.
229.	011149	M/s. Bhuvikas Real Estates Pvt. Ltd.
230.	011151	M/s. Jhansi Agro Products Pvt. Ltd.

1	2	3
231.	011190	M/s. Divyasakti Marketing Pvt. Ltd.
232.	011197	M/s. Amrutha Poultry Farm Pvt. Ltd.

D. RAMAKRISHNAN
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Enmark Appliances Private Limited

Ernakulam-682021, the 6th March 2008

No. 7406.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Enmark Appliances Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Perangatt Mercantile Private Limited

Ernakulam-682021, the 6th March 2008

No. 13572.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Perangatt Mercantile Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. JMM Marketing System Private Limited

Ernakulam-682021, the 6th March 2008

No. 560(3)/MCA/RoC-Ernakulam/Sec./560/2008/00007.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. JMM Marketing System Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Menakath Trades and Investments Private Limited

Ernakulam-682021, the 6th March 2008

No. 560(3)/MCA/RoC-Ernakulam/Sec./560/2008/00004.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of

M/s. Menakath Trades and Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wadakkanchery Cultural Enterprises Limited

Ernakulam-682021, the 6th March 2008

No. 4656.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wadakkanchery Cultural Enterprises Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 7th March 2008

No. TA/H/S. 560(3)/Suo Motu/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following companies mentioned herein below. Unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. Company Company Name
No. No.

1	2	3
1.	30868	M/s. Suparna Computers Education Private Limited.
2.	30873	M/s. Unique Tradeglobo Private Limited.
3.	30878	M/s. Rich N real Fruit Export Private Limited.
4.	30895	M/s. Relaitel India Private Limited.
5.	30902	M/s. Compage IT Solution Private Limited.
6.	30926	M/s. Vijayanagar Silica Products Private Limited.
7.	30939	M/s. Great Plains Healthcare Services India Private Limited.
8.	30946	M/s. Greenpower Renewable Energy & Environment Management Private Limited.
9.	30949	M/s. Kalparuksha Marketing Network (Bangalore) Private Limited.

1	2	3
10.	30957	M/s. Shri Hari Computers Private Limited.
11.	30963	M/s. Clever Mind Network Concept's Private Limited.
12.	30970	M/s. Gajanana Homes Private Limited.
13.	30971	M/s. Tangent Softech Private Limited.
14.	30972	M/s. 3C Advantage Services Private Limited.
15.	30979	M/s. Melange Communications Private Limited.
16.	30988	M/s. Sarayu Infotech Solutions Private Limited.
17.	30999	M/s. Fina Links Credit Concept Private Limited.
18.	30807	M/s. Man Friday Technology Labs Private Limited.
19.	30808	M/s. SIP Engineering Company Private Limited.
20.	30809	M/s. G.L.G. Marketing Private Limited.
21.	30812	M/s. Westmont Energy (India) Private Limited.
22.	30813	M/s. Vinnet Services Private Limited.
23.	30826	M/s. Sinan Info Solutions Private Limited.
24.	30834	M/s. Dikan Impex Private Limited.
25.	30835	M/s. Koshna Business Process Outsourcing Private Limited.
26.	30845	M/s. Jamcel Impex Private Limited.
27.	30854	M/s. green Link Impex Sources Private Limited.
28.	30857	M/s. Gagan Network Private Limited.
29.	30859	M/s. Evergreen Concepts Private Limited.
30.	30860	M/s. E-Mantech Software Solutions Private Limited.

SANJAY KUMAR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 29th February 2008

No. ROCB/TA-MM/560(5)/2008—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of the above Companies have this
day been struck off from the Register of the Registrar of
Companies and the said companies are dissolved.

Sl. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
1.	41451	M/s. Global Entropolis Indo Private Limited.
2.	7756	M/s. Ashi Crafts Private Limited.
3.	21788	M/s. Spline Steels Private Limited.
4.	19079	M/s. Ps quare Power Technologies Private Limited.
5.	23744	M/s. Webs Vision Private Limited.
6.	16004	M/s. Dismac Engineering Private Limited.
7.	34535	M/s. Aalike Seide Private Limited.
8.	36136	M/s. Softsm Development India Private Limited.
9.	32457	M/s. Shivabagvan Constructions Private Limited.
10.	16468	M/s. Nikseem Finance Private Limited.
11.	7922	M/s. C.N.C. Engineering Limited.
12.	19230	M/s. Ishu Diagnostics Limited.
13.	19231	M/s. Ishu Resorts Limited.
14.	19233	M/s. Aishwarya Silks Limited.
15.	21699	M/s. Thermographic Measurements Private Limited.
16.	38083	M/s. MSN Business Private Limited.
17.	26114	M/s. Cityserv Technologies Private Limited.
18.	25229	M/s. Insides Interior Solutions Private Limited.
19.	13694	M/s. Juniper Properties Private Limited.
20.	27116	M/s. Mallikarjuna Associates Private Limited.
21.	22026	M/s. Mavil-Hin Exports Private Limited.
22.	17973	M/s. M-Pol Industries Bangalore Private Limited.
23.	17812	M/s. Sri Sai Lakshmi Developers Private Limited.
24.	22923	M/s. Compact Technologies (India) Private Limited.
25.	27373	M/s. Shamanur Power Corporation Limited.
26.	9831	M/s. Krish Constructions Private Limited.

1	2	3
27.	7487	M/s. Shamanur Industries Limited.
28.	9536	M/s. Venus Fashions Private Limited.
29.	14891	M/s. Sunshine, Pharmachem Limited.
30.	18677	M/s. Chan Fashions Private Limited.
31.	20878	M/s. Shiwas International Limited.
32.	22502	M/s. Auto Scan Services Private Limited.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 29th February 2008

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(3)/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiration of three months from the date hereof, the names of the above Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
1.	34552	M/s. Varietas Beverages Private Limited.
2.	26505	M/s. Entertainment Engineering and Equipment Private Limited.
3.	7975	M/s. Ashoka Polyester Granite Private Limited.
4.	18058	M/s. Veena Lapidary India Private Limited.
5.	10074	M/s. Dhruva Energy Systems Private Limited.
6.	18654	M/s. Matrix International (India) Private Limited.
7.	20001	M/s. Creamline Food Specialities Private Limited.
8.	29072	M/s. Rest Property Management Private Limited.

1	2	3
9.	6257	M/s. J. S. Enterprises Private Limited.
10.	32626	M/s. Talent Data Systems Private Limited.
11.	34891	M/s. Scalent Software Systems (India) Private Limited.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 11th March 2008

No. ROCB/560(3)/SES-2005/2005-06/JE.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiration of three months from the date hereof, the names of the above Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
1.	20248	M/s. Premier Business Credits Private Limited.
2.	20588	M/s. Megacity Super Chits Private Limited.
3.	20346	M/s. Rangeela Garments Dyeing Private Limited.
4.	20825	M/s. Bio Horizon Technologies Private Limited.
5.	20366	M/s. Moderne Effects Exports Private Limited.
6.	20993	M/s. s. M. Instrumentation Private Limited.
7.	20669	M/s. Baslica Financial Consultancy Services Private Limited.
8.	20947	M/s. Urnest Securities Private Limited.
9.	20938	M/s. Zara Fashions Private Limited.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka